



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 75-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MAY 3, 2017 (VAISAKHA 12, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### Notification

The 3rd May, 2017

**No.22-HLA of 2017/37.**— The Gurugram University Bill, 2017, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

**Bill No. 22- HLA of 2017**

### GURUGRAM UNIVERSITY BILL, 2017

**A**

### BILL

*to establish and incorporate a teaching-cum-affiliating University at Gurugram to facilitate and promote higher education with special emphasis in emerging areas of information technology and computer education, commerce, humanities, management studies and also to achieve excellence in these and connected fields.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

- |    |  |                              |
|----|--|------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called Gurugram University Act, 2017.  | Short title and commencement |
|    | (2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.       |                              |
| 2. | In this Act and in all Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder, unless the context otherwise requires,-     | Definitions.                 |
|    | (a) “college” means a college maintained by, or admitted to the privileges of the University;                            |                              |
|    | (b) “employee” means any person appointed by the University and includes teachers and all other staff of the University; |                              |
|    | (c) “Government” means the Government of the State of Haryana;   |                              |

- (d) "institution" means an academic institution not being a college, maintained, by or admitted to the privileges of the University;
- (e) "principal" means the head of a college or institution and includes, when there is no principal, a vice-principal duly appointed as such and in the absence of the principal or the vice-principal, the person for the time being duly appointed to act as the principal;
- (f) "recognized teachers" means such persons as are approved by the University for the purpose of imparting instruction in a college or an institution admitted to the privileges of the University;
- (g) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" mean respectively the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under this Act;
- (h) "University" means Gurugram University as incorporated under this Act; and
- (i) "University teachers" means professors, associate professors, assistant professors and such other person, as may be appointed for imparting instructions or conducting research in the University or in any college or institution maintained by the University and is designated as teacher by the Ordinances.

Incorporation.

**3.** (1) There shall be a body corporate by the name of Gurugram University comprising the Chancellor, the Vice-Chancellor, the members of the Court, the Executive Council, the Academic Council and all persons, who may hereafter become or be appointed as such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property and to contract, and may by the said name sue or be sued.

Territorial exercise of powers.

**4.** (1) The limits of the area within which the University shall exercise its powers shall be such, as the Government may, from time to time, by notification, specify:

Provided that different areas may be specified for different faculties.

(2) Notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force, any college situated within the limits of the area specified under sub-section (1) shall, with effect from such date, as may be notified in this behalf by the Government, be deemed to be associated with, and admitted to the privileges of the University and shall cease to be associated in any way with, or be admitted to, any privileges of any other university, and different dates may be notified for different colleges:

Provided that-

- (i) any student of any college associated with, or admitted to the other university before the said date, who was studying for any degree or diploma examination of that university shall be permitted to complete his course in preparation thereof and the university shall hold for such students, examinations in accordance with the curricula of study in force in that university for such period as may be prescribed by the Statutes, Ordinances or Regulations; and
- (ii) any such student may, until any such examination is held by the University, be admitted to the examination of the other university and be conferred the degree, diploma or any other privilege of that university for which he qualifies on the result of such examination.

Bar on conferring, granting or issuing degrees, diplomas or certificates by unauthorized institutions.

**5.** (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any State law for the time being in force, no person or institution, other than the University, shall confer, grant, issue or hold himself or itself out as entitled to confer, grant or issue any degree, diploma or certificate in the specified areas of knowledge assigned to it within the territorial jurisdiction of the University which is identical with or is a colourable imitation of any degree, diploma or certificate conferred, granted or issued by the University.

(2) Contravention of the provisions of sub-section (1) shall be an offence.

(3) Where an offence under this section has been committed by an institution, every person, incharge of and responsible to the institution for the conduct of its business at the time of the commission of the offence, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against as per the University rules.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), where an offence under this section has been committed by an institution and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any partner, director, manager, secretary or other officer of the institution, such partner, director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

**Explanation.—** For the purpose of this section, “institution” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals.

6. The University shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

- (a) to provide for research and instruction in such branches of learning as the University may think fit and take such steps, as it considers necessary for the advancement of learning and dissemination of knowledge;
- (b) to hold examinations and grant such degrees, diplomas and other academic distinctions or titles to persons as laid down in the Statutes, Ordinances or Regulations;
- (c) to confer honorary degrees or other distinctions on approved persons in the manner as laid down in the Statutes;
- (d) to institute prizes, medals, research studentships, exhibitions and fellowships;
- (e) to receive gifts, donations or benefactions from the Government and to receive gifts, donations and transfers of movable or immovable property from transferors, donors, testators, as the case may be and to create such corpus fund with the donations so received for the welfare of the University;
- (f) to institute principalship, professorship, associate professorship, assistant professorship and to create other posts of any description required by the University and to appoint persons to such posts;
- (g) to co-operate with educational and other institutions in India and abroad having objectives similar to those of the University in such manner, as may be conducive to their common goals;
- (h) to provide instructions, including correspondence and such other courses to such persons as are not members of the University, as it may determine;
- (i) to approve persons for imparting instructions in any college or institution admitted to the privileges of the University;
- (j) to maintain colleges located within the limits of the area referred to in sub-section (1) of section 4 or, subject to the provisions of sub-section (2) of that section, admit to its privileges, colleges not maintained by the University but located within the said area and to withdraw the same;
- (k) to declare a college, an institution or a department as autonomous college or institution or department, as the case may be;
- (l) to borrow with the approval of the Government, on the security of the property of the University, money for the purposes of the University;
- (m) to supervise, control and regulate the residence, conduct and discipline of the students of the University and of colleges and institutions within the jurisdiction of the University;
- (n) to deal with any property belonging to, or vested in the University, in such manner as the University may deem fit for advancing the objects of the University;
- (o) to assess the needs of the State and Country in terms of subjects, fields of specialization, levels of education and training of manpower both on short and long term basis and to initiate necessary programmes to meet those needs;
- (p) to organize training, research and advanced studies based on the understanding of the trends in such branches of learning, as the University may think fit;
- (q) to promote research, design and developmental activities that have a relevance to social needs and the development programmes of the State;

Powers and  
functions of  
University.

- (r) to initiate measures to enlist the co-operation of industries and Government employees to provide complementary facilities;
- (s) to provide for continuous experimentation in imparting knowledge, organization of training and preparation of text- books and other instructional materials;
- (t) to arrange for progressive introduction of continuous evaluation and re-orientation of the subjects in educational measurement;
- (u) to further entrepreneurial ability among its students;
- (v) to educate the public with regard to the requirement of, and opportunities for the advancement of learning and dissemination of knowledge;
- (w) to make special arrangements for the education of women students and the students belonging to such weaker sections of the society, in particular Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the University may consider desirable;
- (x) to frame Statutes, Ordinances or Regulations and alter, modify or rescind the same for all or any of the aforesaid purposes; and
- (y) to do all such things, as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

University open to all races, classes, castes and creeds.

- 7.** The University shall be open to all irrespective of sex, race, creed, caste or class and no test or condition shall be imposed as to religion, belief or profession in admitting or appointing members, students, teachers, workers, or in any other connection whatsoever and no benefaction shall be accepted which in the opinion of the authorities of the University involves conditions or obligations opposed to the spirit and objectives of this provision:

Provided that nothing contained in this section shall be deemed to prevent the University from making any special provisions in respect of weaker sections of the society and in particular Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Teaching of University.

- 8.** All teaching in the University shall be conducted by and in the name of the University, in accordance with the Statutes, Ordinances and Regulations made in this behalf.

Officers of University.

- 9.** The following shall be the officers of the University, namely:-

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) the Registrar; and
- (iv) such other persons in the service of the University as may be declared by the Statutes to be Officers of the University.

Chancellor.

- 10.** (1) The Governor of Haryana by virtue of his office shall be the Chancellor of the University.

- (2) The Chancellor shall be the head of the University.

- (3) The Chancellor shall, if present, preside over the convocation of the University for conferring degrees and meetings of the Court.

- (4) The Chancellor shall have the right-

- (i) to cause an inspection to be made, by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, laboratories and equipment and of any college or institution maintained by the University and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University; and
- (ii) to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration of finances of the University, colleges or institutions.

(5) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and on receipt of such notice, the University shall have the right to make such representation to the Chancellor, as it may consider necessary.

(6) After considering the representation, if any, made by the University, the Chancellor may cause to be made such inspection or inquiry, as is referred to in sub-section (4).

(7) Where any inspection or inquiry has been caused to be made by the Chancellor, the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and to be heard at such inspection or inquiry.

(8) The Chancellor may, if the inspection or inquiry is made in respect of the University or any college or institution maintained by it, address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council, the views of the Chancellor and the action to be taken thereon as advised by the Chancellor.

(9) The Executive Council shall communicate through the Vice-Chancellor to the Chancellor, such action, if any, as it proposes to take or has taken upon the result of such inspection or inquiry.

(10) Where the Executive Council does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may, after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council, issue such directions, as he may think fit and the Executive Council shall comply with such directions.

(11) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may, by order in writing, annul any proceeding of the University, which in his opinion are not in conformity with this Act, the Statutes, the Ordinances or the Regulations:

Provided that before making any such order, he shall call upon the University to show cause why such an order should not be made, and if any cause is shown within a reasonable time, he shall consider the same.

(12) The Chancellor may, at any time, require or direct the University to act in conformity with the provisions of this Act, the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder.

(13) The power exercised by the Chancellor under sub-sections (11) and (12) shall not be called in question in any civil court.

(14) Any employee of the University who is aggrieved by the decision of the Executive Council or the Vice-Chancellor in respect of any disciplinary action taken against him, may address a memorial to the Chancellor, in such manner, as may be prescribed by Statutes and the decision of the Chancellor shall be final.

(15) The Chancellor shall have such other powers, as may be prescribed by the Statutes.

**11.** (1) The Vice-Chancellor shall be appointed solely on academic considerations. He shall be a distinguished educationist having commitment to the values for which the University stands and abilities to provide leadership to the University by his academic worth, administrative competence and moral stature.

Vice-Chancellor.

(2) The Government shall constitute a Selection Committee consisting of one nominee of the Chancellor and two nominees of the Executive Council, which shall prepare a panel of at least three names, in alphabetical order, from which the Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor, on the advice of the Government. The terms and conditions of the service of the Vice-Chancellor shall be determined by the Chancellor, on the advice of the Government.

(3) The Chancellor may, on the advice of the Government cause an inquiry to be held in accordance with the principles of natural justice and remove the Vice-Chancellor from office, if he is found on such inquiry, to be a person patently unfit to be continued in such office.

(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of three years, which may be renewed for not more than one term:

Provided that no person shall be appointed to, or continue in the office of the Vice-Chancellor if he has attained the age of sixty-eight years.

(5) If the Vice-Chancellor is unable to perform his duties owing to his temporary incapacity on account of illness or any other reasons, or the office of the Vice-Chancellor falls vacant due to death, resignation or otherwise, the Chancellor may make arrangement for the performance of duties of the Vice-Chancellor until the existing Vice-Chancellor is able to resume his office or until a regular Vice-Chancellor is appointed, as the case may be.

(6) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the authorities of the University.

(7) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act, except in the matters involving creation or abolition of a faculty, department, or post, the matter involving appointment or removal of an employee:

Provided that the Vice-Chancellor before exercising powers under this section shall record in writing the reasons, why the matter cannot wait till the meeting of the authority concerned:

Provided further that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken by the Vice-Chancellor, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall have the right to represent to the Executive Council within one month from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor. The employee shall be informed that the action has been taken under emergency powers.

(8) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes or Ordinances.

Registrar.

**12.** (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor on the advice of the Government.

(2) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the University. He shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.

Appointment of first Vice-Chancellor and first Registrar.

**13.** Notwithstanding anything contained in this Act, the first Vice-Chancellor and the first Registrar shall be appointed by the Chancellor on the advice of the Government for a period as deemed appropriate by the Government.

Other officers.

**14.** The manner of appointment, powers and duties of other officers of the University shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

Creation of teaching and non-teaching posts.

**15.** Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall not create any teaching and non-teaching post or revise the pay scale of the teaching and non-teaching employees without obtaining the prior approval of the Government.

Authorities of University.

**16.** The following shall be the authorities of the University, namely:-

- (i) the Court;
- (ii) the Executive Council;
- (iii) the Academic Council;
- (iv) the Finance Committee;
- (v) the Faculties;
- (vi) the Academic Planning Board; and
- (vii) such other authorities, as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

Court.

**17.** (1) The constitution of the Court and the term of office of its members shall be prescribed by the Statutes.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Court shall have the following powers and functions, namely:-

- (a) to review from time to time, the broad policies and programmes of the University and to suggest measures for the improvement and development of the University;

	(b) to consider and pass resolution on the annual report, annual budget, the annual accounts of the University and on the audit report of such accounts;	
	(c) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice; and	
	(d) to perform such other functions, as may be prescribed by the Statutes.	
<b>18.</b>	(1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University.	Executive Council.
	(2) The constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and duties shall be such, as may be prescribed by the Statutes.	
<b>19.</b>	(1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and Ordinances, co-ordinate and exercise general supervision over all academic policies of the University.	Academic Council.
	(2) The constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and duties shall be such, as may be prescribed by the Statutes.	
<b>20.</b>	The constitution and functions of the faculties shall be such, as may be prescribed by the Statutes.	Faculties.
<b>21.</b>	The constitution of the Finance Committee, the term of office of its members, its powers and duties shall be such, as may be prescribed by the Statutes.	Finance Committee.
<b>22.</b>	The constitution and functions of the Academic Planning Board shall be such, as may be prescribed by the Statutes.	Academic Planning Board.
<b>23.</b>	Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:-	Statutes and their scope.
	(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be constituted from time to time;	
	(b) the classification, mode of appointment, powers and duties of the teachers and the officers of the University;	
	(c) the conditions of the service including provision for pension or provident fund or insurance scheme for the benefit of the employees of the University;	
	(d) the conferment of honorary degrees;	
	(e) the establishment and abolition of faculties and departments;	
	(f) the institution of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes;	
	(g) the maintenance of discipline among the students;	
	(h) the conditions under which colleges and institutions may be admitted to the privileges of the University and the withdrawal of the same;	
	(i) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University; and	
	(j) all other matters which by this Act, are to be or may be provided for, by the Statutes.	
<b>24.</b>	(1) On the commencement of this Act, the Statutes of the University shall be those as set out in the Schedule:	Statutes how made.
	Provided that the authorities of the University constituted under the Statutes framed before the commencement of this Act shall continue to exercise all the powers and perform all the functions under this Act till such authorities are constituted in terms of the Statutes set out in the Schedule referred to above.	
	(2) The Government or the Executive Council may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the Statutes in the manner hereinafter provided in this section:	
	Provided that the Executive Council shall not make, amend or repeal any Statute, affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed, shall be considered by the Executive Council.	
	(3) The Academic Council may propose to the Executive Council a draft of any Statute relating to academic matters for consideration by the Executive Council.	

(4) Every new Statute or addition to the Statute or any amendment or repeal of a Statute shall require the approval of the Chancellor, who may approve, disapprove or remit it for further consideration. A Statute passed by the Government or the Executive Council shall have no validity until it has been assented to by the Chancellor.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Chancellor, either suo moto or on the advice of the Government, may direct the Executive Council, to make, amend or repeal the Statutes in respect of any matter specified by him and if the Executive Council fails to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Executive Council for its inability to comply with such direction, make, amend or repeal the Statutes suitably.

Ordinances and their scope.

**25.** Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the admission of students to the University and their enrolment as such;
- (b) and for the admission to the examinations, degrees and diplomas of the University and further to make progressively the fee structure so flexible that the courses could become self-financing to the extent possible;
- (c) the conditions under which students shall be admitted to the degree, diploma or other courses and to the examination of the University and eligibility for such degrees and diplomas;
- (d) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees, diplomas and other courses of the University and further to make progressively the fee structure so flexible that the courses could become self-financing to the extent possible;
- (e) the conditions of the award of fellowships, studentships, exhibitions, medals and prizes;
- (f) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;
- (g) the conditions of residence of students of the University; and
- (h) all other matters which by this Act or the Statutes are to be made or may be provided for by the Ordinances.

Ordinances how made.

**26.** (1) The Ordinances shall be made, amended, repealed or added to by the Executive Council:

Provided that no Ordinance shall be made-

- (i) affecting the admission or enrolment of students or prescribing examinations to be recognized as equivalent to the University examinations; and
  - (ii) affecting the conditions, mode of appointment or duties of examiners or the conduct or standard of examination or any courses of study;
- unless the draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council.

(2) The Executive Council may return to the Academic Council for reconsideration, either in whole or in part, any draft proposed by the Academic Council under sub-section (1) alongwith its suggestions:

Provided that the Executive Council shall not amend the draft proposed by the Academic Council itself. It may, however, reject such draft, if not found suitable when submitted to it by the Academic Council for the second time.

(3) All Ordinances made by the Executive Council shall have effect from such date, as it may direct and every Ordinance made shall be communicated, as soon as may be, to the Chancellor.

Regulations.

**27.** (1) The authorities of the University may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances-

- (a) laying down the procedure to be observed at their meetings; and
- (b) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are to be prescribed by Regulations.

(2) Every authority of the University shall make Regulations providing for giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be considered at meetings and for the keeping of a record of the proceedings of the meetings.

**28.** The annual report of the University giving details of broad programmes, policies and finances, amendments of Statutes and Ordinances made during the year under report, shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall be submitted to the Court on or after such date, as may be prescribed by the Statutes and the Court shall consider the report in its annual meeting.

Annual report.

**29.** (1) The annual accounts and the balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall at least once in every year and at intervals of not more than fifteen months be audited by the Director, Local Audit, Haryana or any other auditor that may be appointed by the Government. The annual accounts when audited shall be published in the Haryana Government Gazette and a copy of the annual accounts alongwith the report of the Director, Local Audit, Haryana or the Auditor shall be submitted to the Court and the Chancellor alongwith the observations of the Executive Council. Any observations made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Court and observations of the Court, if any, shall after being considered by the Executive Council, be submitted to the Chancellor.

(2) The annual accounts and the balance sheet of the University shall also be submitted to the Government at the time of its submission to the Chancellor.

Annual accounts.

**30.** (1) Every salaried officer and teacher, except the Vice-Chancellor, shall be appointed under a written contract, which shall be lodged with the University and any dispute arising out of a contract between the University and any of the officers or teachers shall, at the request of the teacher or officer concerned or at the instance of the University, be referred to a Tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Executive Council, one member nominated by the officer or teacher concerned and one nominee of the Chancellor. The decision of the majority of the members of the Tribunal shall be final and no suit shall lie in any civil court in respect of the matter decided by the Tribunal.

Condition of service of officers and teachers.

(2) Every such request shall be deemed to be a submission to arbitration within the meaning of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Central Act 26 of 1996).

**31.** (1) The University shall institute, for the benefit of its officers, teachers and other employees, pension, provident fund and insurance fund, as it may deem fit.

Pension, provident fund and insurance fund.

(2) Where any provident fund and insurance fund have been so constituted, the provisions of the Provident Fund Act, 1925 (Central Act 19 of 1925), shall be applicable to it as if it were a Government Provident Fund.

**32.** No act done, or proceeding taken, under this Act by any authority or other body of the University shall be invalid merely on the ground of any-

Vacancy not to invalidate proceedings.

- (a) vacancy or defect in the constitution of the authority or body; or
- (b) defect or irregularity in election, nomination or appointment of a person acting as a member thereof; or
- (c) defect or irregularity in such act or proceeding, not affecting the merits of the case.

**33.** If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Certain disputes to be referred to Chancellor.

**34.** If any difficulty arises with respect to the establishment of the University or in connection with the first meeting of any authority of the University or otherwise in first giving effect to the provisions of this Act, the Government may, at any time, before any authority of the University has been constituted, by order, make any appointment or do anything consistent, so far as may be, with the provisions of this Act, which appears to it necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty and every such order shall have effect as if such appointment or action had been made or taken in the manner provided in this Act.

Power to remove difficulties.

**35.** No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, the Statutes or Ordinances.

Protection of action taken in good faith.

## THE SCHEDULE

(Statutes of Gurugram University)

*(see section 24)*

Powers and duties  
of Vice-Chancellor.

- 1.**
  - (i)** The Vice-Chancellor shall be ex-officio Chairman of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee and shall, in the absence of the Chancellor, preside over the convocations of the University held for conferring degrees and over the meetings of the Court. The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and to address, any meeting of any authority or other body of the University, but shall not be entitled to vote thereat, unless he is the member of such authority or body.
  - (ii)** It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that the provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed and he shall take all necessary steps to ensure such observance.
  - (iii)** The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee and any other authority or body of the University.
  - (iv)** The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall give effect to the decisions of the authorities of the University.
  - (v)** The decision of the Vice-Chancellor regarding seniority for nomination to the various authorities or bodies of the University, shall be final.
- 2.**
  - (i)** The Registrar shall be ex-officio Secretary of the Executive Council and Faculties but shall not be deemed to be a member of any of these authorities, and shall be ex-officio Member-Secretary of the Court and the Academic Council.
  - (ii)** When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is by reason of illness or any other cause, unable to perform the duties of the office, the duties of the office shall be performed by such person, as the Vice-Chancellor may appoint temporarily for the purpose till the regular appointment is made by the Chancellor on the advice of the Government.
  - (iii)** It shall be the duty of the Registrar-
    - (a)** to be the custodian of the records, common seal and such other property of the University, as the Vice-Chancellor shall commit to his charge;
    - (b)** to issue all notices convening meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the Faculties and of any committee appointed by any authority of the University;
    - (c)** to keep the minutes of all meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the Faculties and any committee appointed by the authorities of the University;
    - (d)** to conduct the official correspondence of the Court, the Executive Council, the Academic Council and the Faculties;
    - (e)** to supply to the Chancellor, copies of the agenda, the minutes of the meetings of the authorities of the University, as soon as they are issued; and
    - (f)** to perform such other duties, as may, from time to time, be assigned to him by Vice-Chancellor.
  - (iv)** The Registrar shall have power to administer warning or to impose the penalty of censure or withholding of increments upon such of the employee, excluding teachers of the University and the academic staff, as may be specified in the orders of the Executive Council and to suspend them pending enquiry:

Provided that no such penalty shall be imposed unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

- (v) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Registrar imposing any of the penalties specified in clause (iv).
- (vi) In case the inquiry discloses that a punishment, beyond the powers of the Registrar is called for, the Registrar shall, upon conclusion of the inquiry make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendations:  
Provided that an appeal shall lie to the Executive Council against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty.
- (vii) The Registrar shall be the authorized officer to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall act in such capacity when the appropriate authority of the University has taken a decision in the matter. The Registrar shall also exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by Statutes or the Ordinances.

**3.** The following persons in the service of the University are also declared to be the officers of the University, namely:- Other officers.

- (a) Proctor;
- (b) Chief Warden;
- (c) Dean of Students' Welfare, if any;
- (d) Dean, Academic Affairs;
- (e) Dean of Colleges;
- (f) Librarian;
- (g) Controller of Examination; and
- (h) Finance Officer.

**4.** The Proctor, the Chief Warden, the Dean of Students' Welfare and Dean Academic Affairs shall be appointed by the Executive Council, on the recommendations of the Vice-Chancellor, from amongst the teachers of the University, who shall not be below the rank of professor, on such terms and conditions, as the Vice-Chancellor may recommend to the Executive Council:

Proctor, Chief Warden, Dean of Students Welfare and Dean Academic Affairs.

Provided that the term of Dean, Academic Affairs shall be two years extendable by another one year, if deemed proper, by the Executive Council, on the recommendations of the Vice-Chancellor.

**5.** The Dean of Colleges, if any, shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Executive Council, on the recommendations of the Vice-Chancellor, on such terms and conditions, as may be prescribed by the Statutes. He shall discharge such duties, as may be assigned to him by the Vice-Chancellor, from time to time.

Dean of Colleges.

**6.** (1) The Finance Officer shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of the Selection Committee, on such terms and conditions, as may be prescribed by the Statutes.

Finance Officer.

(2) The Finance Officer shall be ex-officio Secretary of the Finance Committee, but shall not be deemed to be a member of such Committee.

(3) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is by reason of illness or any other cause is unable to perform the duties of his office, the duties of the officer shall be performed by such person, as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(4) The Finance Officer shall-

- (a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise it as regards its financial policy; and
- (b) perform such other functions, as may be assigned to him by the Executive Council or as may be prescribed by the Statutes.

- (5) Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall-
- (a) hold and manage the property and investments of the University including trust and endowed property;
  - (b) ensure that the limits fixed by the Finance Committee for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted;
  - (c) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University and for their presentation to the Executive Council;
  - (d) keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments;
  - (e) watch the progress of the collection of revenue and advise on the method of collection to be employed;
  - (f) ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and that stock checking of equipment and other connected materials in all offices, special centres, specialized laboratories, colleges and institutions maintained by the University is conducted;
  - (g) bring to the notice of the Vice-Chancellor any unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest action to be taken against the person responsible for it; and
  - (h) call for from any officer, centre, laboratory, college or institution maintained by the University, any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties.

(6) The receipt of the Finance Officer or of the person or person duly authorized in this behalf by the Executive Council for any money payable to the University shall be sufficient discharge for payment of such money.

Controller of examinations.

7. (1) The Controller of Examinations, shall be whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Executive Council, on the recommendations of the Establishment Committee, on such terms and conditions, as may be prescribed by Executive Council.

- (2) It shall be the duty of the Controller of Examinations to-
- (a) conduct examinations in a disciplined and efficient manner;
  - (b) arrange for the setting of papers with strict regard of secrecy;
  - (c) arrange for the evaluation of answer-sheets in accordance with the planned time schedule for results;
  - (d) constantly review the system of examinations in order to enhance the level of impartiality and objectivity with a view to make it better instrument for assessing the attainments of students; and
  - (e) perform such function as are connected with the system of examinations which may, from time to time, be assigned to him by the Vice-Chancellor.

Librarian.

8. The Librarian shall be whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of the Establishment Committee, on such terms and conditions, as may be prescribed by the Executive Council.

Court and its constitution.

9. (1) The Court shall consist of following members, namely:-

- (a) Ex-Officio Members-
  - (i) the Chancellor;
  - (ii) the Vice Chancellor;
  - (iii) the Secretary to Government, Haryana, Finance Department, or a nominee not below the rank of Director or Joint Secretary;

- (iv) the Principal Secretary to Government, Haryana, Higher Education Department or a nominee not below the rank of the Joint Secretary;
  - (v) the Director General, Higher Education or in his absence Joint Director Colleges;
  - (vi) the Director General Health Services or his nominee not below the rank of Joint Secretary;
  - (vii) the Director of Technical Education, Haryana;
  - (viii) the Dean of Faculties;
  - (ix) the Dean of Colleges;
  - (x) the Registrar;
  - (xi) the Dean of Students' Welfare, if any;
  - (xii) the Controller of Examinations;
  - (xiii) Dean of Academic Affairs;
  - (xiv) Librarian; and
  - (xv) Finance Officer.
- (b) Other members-
- (i) two persons to be elected by the Haryana Legislative Assembly from amongst its members;
  - (ii) professors of the University not exceeding ten, on the basis of seniority by rotation;
  - (iii) five teachers to be elected from amongst the associate professor and assistant professor of the University of whom at least two shall be associate professor;
  - (iv) one principal from the colleges of education admitted to the privileges of the University, on the basis of seniority, by rotation;
  - (v) one principal to be elected from amongst themselves by the principals holding their posts in substantive capacity in colleges, other than colleges of education, included in each of the four zones to be demarcated by the Vice-Chancellor;
  - (vi) four teachers other than principals to be elected from amongst themselves by the teachers holding their posts in a substantive capacity in colleges included in each of the four zones to be demarcated by the Vice-Chancellor:
- Provided that not more than one teacher under this sub-clause, shall belong to any one college;
- (vii) Secretary, Gurugram University Students' Union and two secretaries to be elected from amongst themselves by the Students' Union in Colleges in the State for the period from the date of election till the 31st May of the academic year;
  - (viii) fifteen representatives (ten from amongst eminent academicians and five representatives from industry, commerce, medicine, engineering etc.) to be nominated by the Chancellor for a term of three years;
  - (ix) one of the principals of colleges maintained by the University, by rotation for a term of three years; and
  - (x) two persons elected from amongst themselves by the representatives of the managements of non-Government colleges. The representatives of the managements shall be from amongst the members of the concerned management.

(c) The Registrar shall be a Member-Secretary of the Court:

Provided that no salaried servant of the University, including its allied institutions, shall be eligible for election or nomination under any of the preceding sub-clauses except sub-clauses (ii) to (vi) and (ix) and that if any person elected or nominated under any of the preceding sub-clauses except sub-clauses (ii) to (vi) and (ix) is subsequently appointed to any salaried post in the University or its allied institutions, he shall cease to be a member of the Court:

Provided further that no person shall be eligible for nomination or election to the Court except under sub-clause (vii) unless he has attained the age of twenty-five years.

(2) Save as otherwise expressly provided, the members of the Court other than ex-officio members, shall hold office for a term of two years.

(3) At all meetings of the Court, two-fifth of the members shall form a quorum.

(4) If the required number of members for purposes of quorum is not present within half-an-hour after the appointed time of the meeting, the meeting shall not be held and the Registrar shall make a record of that fact.

(5) The method of election shall be by simple majority voting by ballot and the election shall be conducted in accordance with the rules framed by the Vice-Chancellor.

Meeting of court.

**10.** (1) The Court shall meet at least once a year.

(2) A special meeting of the Court may be convened at any time by the Chancellor or the Vice-Chancellor on a written request by one-third of its members.

Executive council  
and its constitution.

**11.** (1) The Executive Council shall consist of the following persons, namely:-

I. Ex-officio-members-

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Secretary to Government, Haryana, Finance Department, or a nominee not below the rank of the Director or Joint Secretary;
- (iii) the Principal Secretary to Government, Haryana, Higher Education Department, or a nominee not below the rank of Deputy Director; and
- (iv) the Secretary to Government, Haryana, Technical Education Department or a nominee not below the rank of Director or Joint Director/Joint Secretary;

II. Other members-

- (a) Five Deans of the Faculties one from each of the following categories:
  - (i) Dean, Faculty of Physical Sciences and Dean Faculty of Life Sciences, by rotation;
  - (ii) Dean, Faculty of Commerce and Management and social Sciences by rotation;
  - (iii) Dean, Faculty of Humanities and Law by rotation;
  - (iv) Dean, Faculty of Indic Studies and Education, by rotation; and
  - (v) Dean, Faculties of Engineering and Technology and Medical Sciences, by rotation;
- (b) Dean Academic Affairs;
- (c) two principals (other than the Deans of Faculties) of colleges, out of whom one shall be from a women's college, by rotation, on the basis of seniority of age;
- (d) one teacher (other than a principal) of a college to be elected by the members of the Court from amongst themselves;

- (e) one out of the professors of the University Teaching Departments other than the Deans under sub-clause (a), by rotation for one year, on the basis of seniority;
  - (f) two teachers of the University Teaching Departments other than professor to be elected from amongst themselves out of whom at least one shall be associate professor; and
  - (g) four persons as the Chancellor's nominee from amongst distinguished educationists of national or international eminence or distinguished serving/retired civil servants.
- (2) The Registrar shall be ex-officio Secretary of the Executive Council.
- (3) Two-fifths of the members shall form a quorum.
- (4) Save as otherwise expressly provided, the members of the Executive Council, other than ex-officio members, shall hold office for a term of two years.
- (5) Any member who ceases to hold the qualifications by virtue of which he was elected or nominated as member to the Executive Council shall cease to be a member thereof.

**12.** Any decision of the Executive Council in the matters involving additional financial liability and those relating to the annual budget of the University shall hold good only if at least one representative of the Government is present at the time of taking such decision and has consented to that decision.

Decision of  
Executive Council.

**13.** The Executive Council shall exercise the following powers, namely:-

- (a) to hold, control and administer the revenue, property and funds of the University;
- (b) to create teaching and academic posts, to determine the number and emoluments of such posts and to define the duties and conditions of service of professors, associate professor, assistant professor and other academic staff and principals of colleges and institutions maintained by the University:

Provided that in the matters of creation of new posts involving additional financial liability shall hold good if the representative of the Government as given below:-

Finance Secretary or in his absence, his representative;

Or

Secretary, Education or in his absence his representative is present at the time of taking such decision and has consented to that decision:

Provided further that in case the Government representative from the Finance or Higher Education Department is not present in two consecutive meetings even after the proper notice, then the Executive Council may approve the proposal regarding creation of posts:

Provided further that in respect of the number, qualifications and the emoluments of teachers and academic staff, the Executive Council shall take action after consideration of the recommendations of the Academic Council and the Finance Committee;

- (c) to appoint professors, associate professor, assistant professor, other academic staff and principals of colleges and institutions maintained by the University, on the recommendations of the Selection Committee constituted for the purpose and to fill in temporary vacancies therein;
- (d) to create administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto, in the manner prescribed by the Statutes;
- (e) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such agents, as it may think fit;

Powers of  
Executive Council.

- (f) to invest any money belonging to the University including any unapplied income in such stocks, funds, shares or securities as it shall, from time to time think fit or in the purchase of immovable property in India with like powers of varying such investments from time to time;
- (g) to transfer or accept transfer of any movable and immovable property on behalf of the University;
- (h) to provide buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed, for carrying on the work of the University;
- (i) to select a common seal for the University;
- (j) to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor, the Registrar or such other employee or authority of the University or to a committee appointed by it, as it may deem fit;
- (k) to enter into, vary, carry out, or cancel contracts on behalf of the University;
- (l) to make, amend or repeal the Statutes;
- (m) to make decisions regarding maintenance of discipline among students; and
- (n) to exercise all powers of the University not otherwise provided for by the Act, the Statutes, or the Ordinances.

Academic Council and its Constitution. **14.** (1) The Academic Council shall consist of the following persons, namely:-

I. Ex-officio members-

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Director General Higher Education, Haryana or the Joint Director or any nominee not below the rank of Deputy Director;
- (iii) the Registrar;
- (iv) the Dean of Faculties;
- (v) the Dean, Students' Welfare, if any;
- (vi) the Dean, Academic Affairs;
- (vii) the Dean of Colleges;
- (viii) the Chairpersons of the Departments;
- (ix) the Chief Warden of University Hostels;
- (x) the Proctor;
- (xi) the Controller of Examinations, if any;
- (xii) the Librarian of the University Library;
- (xiii) one principal out of the principals of colleges maintained by the University, by rotation, provided that he is not a member of the Executive Council; and
- (xiv) professor(s) Emeritus appointed by the University/Emeritus Fellow appointed by the University Grant Commission (but without having right to vote or seek election).

II. Other members-

- (i) one professor appointed by the University from each Department, by rotation, on the basis of seniority;
- (ii) one University Reader from each faculty, by rotation, on the basis of seniority;

- (iii) one University lecturer from each faculty, by rotation, on the basis of seniority;
- (iv) one principal and three teachers to be elected from amongst themselves by the principals and teachers respectively, holding their posts in substantive capacity in the colleges included in each of the constituencies mentioned below:
  - (a) Government colleges, other than the colleges of Education;
  - (b) Colleges of Education;
  - (c) Non-Government colleges, other than the colleges of Education, in each of the four zones to be demarcated by the Vice-Chancellor:

Provided that not more than one teacher elected under this clause shall belong to any one college;
- (v) five educationists of national or international eminence to be nominated by the Vice-Chancellor, from outside the University:
 

Provided that not more than one of them shall be from the same field;

  - (vi) three persons elected by the Court from amongst its own members; and
  - (vii) President, Gurugram University, Gurugram Students' Union and two Presidents to be elected from amongst themselves by the Presidents of the Students' Unions in the colleges for the period from the date of election till the 31st May of the Academic Year:

Provided that the members coming under this sub-clause shall not participate in the meeting at the time, the Academic Council considers the appointment of examiners.

- (2) The Registrar shall be the Member-Secretary of Academic Council.
- (3) Two-fifths of the members shall form a quorum.
- (4) Save as otherwise expressly provided, the members of the Academic Council, other than ex-officio members, shall hold office for a term of two years.

(5) the method of election shall be by simple majority voting by ballot and the elections shall be conducted in accordance with the rules framed by the Vice-Chancellor.

- 15.** (1) The Academic Council shall exercise the following powers, namely :-
- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) to exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instructions, evaluation of research or improvements in academic standards;</li> <li>(b) to consider matters of general academic interest either on its own initiatives or on a reference by the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Executive Council or a Faculty and to take appropriate action thereon;</li> <li>(c) to recommend to the Executive Council, the creation and abolition of teaching posts;</li> <li>(d) to prescribe syllabi and courses of study for various examinations on the recommendations of the faculties;</li> <li>(e) to frame such regulations consistent with the Statutes and Ordinances regarding the academic functions of the University, discipline, residence, admissions, awards of fellowships, studentships, scholarships, medals and prizes, fee concessions, corporate life and attendance; and</li> <li>(f) to exercise such other powers and perform such other duties, as may be conferred or assigned to the Academic Council by this Act, the Statutes, or the Ordinances.</li> </ul> | <p>Powers of<br/>Academic Council.</p> |
|--|--|

(2) All decisions of the Academic Council concerning syllabi, courses of studies and conducting of examinations so far as they are not provided for by the Statutes and Ordinances shall be final.

Composition of  
Finance Committee.

- 16.** (1) The Finance Committee shall consist of the following persons, namely:-
- (I) Ex-officio members-
    - (a) the Vice- Chancellor (Chairperson);
    - (b) the Secretary to Government, Haryana, Finance Department or his nominee not below the rank of Director or Joint Secretary;
    - (c) the Secretary to Government, Haryana, Higher Education Department or a nominee not below the rank of the Director or Joint Secretary; and
    - (d) the Secretary to Government, Haryana, Technical Education Department or a nominee not below the rank of Director or Joint Secretary;
  - (II ) Other members –
    - (a) one outside member having expertise in finance to be nominated by the Chancellor on the recommendation of the Vice- Chancellor; and
    - (b) two Deans of Faculties to be nominated by the Vice-Chancellor;
  - (2) The Registrar shall be the Member- Secretary of the Committee.
  - (3) Nominated members of the Finance Committee shall hold office for a term of two years.
  - (4) Three members, out of whom at least one member shall be a Government nominee, shall form the quorum.

Functions and  
powers of Finance  
Committee.

- 17.** (1) The Finance Committee shall examine the accounts and scrutinize the proposals for expenditure and shall submit the annual budget to the Executive Council for approval. No expenditure in the budget shall be incurred by the University without the prior approval of the Finance Committee which shall fix limits for the total recurring and non- recurring expenditure for the year based on the resources and the income of the University. No expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits so fixed.
- (2) It shall examine and recommend to the Executive Council the creation of teaching and other posts.
- (3) The annual accounts and the official estimate of the University shall be laid before the Finance Committee for its consideration and comments thereon and thereafter submitted to the Executive Council for approval.

Faculties of  
Universities.

- 18.** There shall be the following Faculties, namely:-
- (1) Faculty of Humanities;
  - (2) Faculty of Social Sciences;
  - (3) Faculty of Life Sciencies;
  - (4) Faculty of Education;
  - (5) Faculty of Commerce and Management;
  - (6) Faculty of Information Technology; and
  - (7) Such other faculties, as the Executive Council may prescribe on the recommendation of Academic Council by the Statutes.

Constitution of  
Faculties.

- 19.** (1) Each Faculty shall consist of –
- (i) Dean of the Faculty (Chairperson);
  - (ii) Chairman of the Departments included in that Faculty;
  - (iii) One professor from each Department on the basis of seniority, by rotation;

- (iv) One associate professor and one assistant professor appointed or recognized by the University in the Departments included in the Faculty by rotation according to seniority; and
  - (v) Two principals of Colleges or Institutes admitted to the privileges of the University on the basis of seniority, by rotation.
- (2) Members nominated shall hold office for a period of two years:
- Provided that the Executive Council, at the request of the Academic Council, may increase the number of members of a Faculty.
- (3) Branch In-charge of the Academic Branch not below the rank of Assistant Registrar may act as Secretary of the Faculties.
- (4) Two-fifths of the members in each Faculty shall form the quorum.

**20.** (1) There shall be a Dean of each Faculty who shall be appointed by the Vice-Chancellor. The Dean shall be appointed in rotation on the basis of seniority amongst the professors in various Departments comprising the Faculty:

Dean of Faculties.

Provided that a professor appointed as Dean, shall get his next turn after all the professors in the Faculty, have been appointed as Dean in order of their seniority:

Provided further that in case there is no professor in the Faculty, the Dean shall be appointed from amongst the associate professor in the concerned Departments.

- (2) Suitable remuneration shall be attached to the office of the Dean who shall hold office for a term of two years.
- (3) The Dean shall convene meetings of the Faculty and shall preside over them.
- (4) The Dean shall be responsible for the co-ordination of teaching therein and the execution of the decisions of the Faculty.
- (5) The Dean shall have the right to be present and to take part in discussion at any meeting of committee of the Faculty.

**21.** Subject to control of the Academic Council, the powers of the Faculty shall be-

Powers of Faculties.

- (a) to co-ordinate teaching and research work of the University in the Departments assigned to the Faculty;
- (b) to recommend to the Academic Council, courses of studies and syllabi for the different examinations after necessary report from the Boards of Studies;
- (c) to receive reports from the Departments for the creation and abolition of posts and to forward them to the Academic Council with such recommendations, as it may consider reasonable;
- (d) to discuss and suggest to the Academic Council, schemes for the advancement of standards of teaching and examinations; and
- (e) to deal with any matter that may be referred to it by the Academic Council or the Vice-Chancellor or the Dean of the Faculty.

**22.** (1) Each teaching department shall have a Chairperson who shall be appointed by the Vice-Chancellor for a period of three years by rotation:

Chairperson of Department.

Provided that-

- (a) if a Department has two or more professors, the Chairpersonship shall rotate by seniority only among the professors:

Provided that a professor appointed as Chairman shall get his next turn after all the professors in the Department have been appointed as Chairperson in order of their seniority;

- (b) if a Department has only one professor, the Chairpersonship shall rotate between the professor and the senior-most Reader;
- (c) if a Department has no professor, the Chairpersonship shall rotate between the two senior-most associate professor; and
- (d) the Vice-Chancellor, if he considers it necessary for any administrative reason, may deviate from the principle of seniority, in which case he shall report the matter to the Executive Council at its next meeting.

(2) In the case of a Department where no teacher is eligible for appointment as Chairperson or for such Departments where instruction is imparted only upto the under-graduate level in the colleges, the Dean of the concerned Faculty shall be the Chairperson.

(3) In case a senior person is on long leave, the next eligible person shall be appointed as Chairperson of the Department and he shall continue as such till the completion of his term, even if the senior person returns from leave during that period. However, the senior person shall be eligible for appointment as Chairperson after the expiry of the term of the present incumbent.

(4) In case the Chairperson of the Department by reason of illness, absence or any other cause, is unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by the next eligible person, unless, the Vice-Chancellor orders otherwise.

(5) In case a person refuses to accept the offer of appointment as Chairperson or resigns on his own, he shall not be eligible for appointment as Chairperson of the Department till his turn comes again after the completion of the rotation circle among the eligible teachers.

(6) If the Vice-Chancellor deems it necessary, he may appoint the next eligible person as Chairperson irrespective of the fact that the term of the present Chairperson has not yet expired, in such case, he shall report the matter to the Executive Council at its next meeting.

#### Appointments.

**23.** (1) All appointments to teaching posts shall be made by the Executive Council on the recommendations of the Selection Committee.

(2) Appointments to Group A posts (non-teaching/technical) shall be made by the Executive Council, on the recommendation of the Establishment/Selection Committee.

- (3) (i) Appointments to posts of Group B shall be made by the Vice-Chancellor after complying with the due procedure laid down in the rules or orders; and
- (ii) Appointments on daily wages in respect of Group C and D employees shall be made by the Registrar after complying with the due procedure laid down in the rules or orders.

(4) Notwithstanding anything contained in clauses (1), (2) and (3) above, the Vice-Chancellor may, where he considers necessary, make an adhoc or temporary appointment for a period not exceeding six months, if it is not possible or desirable to make regular appointment. Where the appointing authority is the Executive Council, the decision taken by the Vice-Chancellor shall be reported to the Executive Council in its next meeting.

#### Selection Committee.

**24.** (1) A Selection Committee for any appointment of professor/associate professor/assistant professor shall consist of –

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Dean of the Faculty;
- (iii) the Chairperson of the Department concerned, if he is a professor;
- (iv) the senior-most professor in the Department except where otherwise decided by the Vice-Chancellor;
- (v) three persons not connected with the University, nominated by the Vice-Chancellor from a panel of names drawn up by the Academic Council on the basis of their special knowledge of, or interest in the subject with which the professor shall be concerned :

Provided that the Vice-Chancellor may add more names to the panel in special circumstances and report these to the Academic Council at its next meeting; and

- (vi) An Academician, who is nominee of the Chancellor.

(2) The panel of names drawn up by the Academic Council and the additions, if any, made thereto by the Vice-Chancellor, as provided in the Statutes, shall be subject to approval of the Chancellor:

Provided that in case one of the experts fails to turn up at Selection Committee, after accepting the invitation to attend the same, the proceeding of the meeting shall not be invalidated:

Provided further that the proceedings of the meetings of a Selection Committee shall not be invalidated in case of any of the ex- officio members of the Selection Committee fails to attend the meeting.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the meetings of a Selection Committee and the Registrar shall act as its Secretary. The meeting of a Selection Committee shall be convened by, or under the directions of the Vice-Chancellor.

(4) The Selection Committee shall consider and submit to the Executive Council the recommendations as to the appointment referred to it. If the Executive Council is unable to accept the recommendations made by the Committee, it shall record its reasons and submit the case to the Chancellor for final orders.

(5) Notwithstanding anything contained in Statutes, the Executive Council may invite a person of high academic distinction and professional attainments to accept a post of professor in the University, on such terms and conditions as it deems fit and on the person agreeing to do so, appoint him to the post.

**25.** The constitution of the Establishment Committee shall be determined by the Ordinances.

Establishment Committee.

**26.** (1) The Academic Planning Board shall consist of –

Constitution and functions of Academic and Planning Board.

- (a) the Vice- Chancellor;
- (b) not more than seven persons of high standing on education who shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the Vice-Chancellor for a term of two years; and
- (c) the Registrar shall be the Secretary to the Board.

(2) The recommendations of the Board shall be implemented after they are approved by appropriate authorities of the University.

(3) It shall advise on the planning and development of the University particularly in respect of the standards of education and research in the University.

**27.** Convocation of the University for conferring of degrees and for other purposes shall be held in such manner, as may be laid down by the Executive Council from time to time, by means of an Ordinance:

Convocation.

Provided that every proposal to confer an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

**28.** There shall be University Teaching Departments duly created by the Academic Council on the recommendation of the Vice-Chancellor in the various Faculties of the University.

Departments.

**29.** The Departments of Studies shall be assigned to various Faculties by the Academic Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.

Assignment of Department of Studies to Faculties.

**30.** (1) Every Department included in a Faculty, shall have two Boards of Studies, one for under-graduate studies and the other Board of Studies for post-graduate studies and research.

Board of Studies.

(2) The Board of under-graduate studies shall consists of-

- (i) the Chairperson of the Department;
- (ii) one professor appointed or recognized by the University in the Department, to be nominated by the Vice-Chancellor, by rotation, according to seniority;
- (iii) one associate professor and one assistant professor appointed or recognized by the University in the Department, to be nominated by the Vice-Chancellor, by rotation, according to seniority:

Provided that no such teacher shall be nominated for two consecutive terms:

Provided further that a teacher who has been nominated as a member of the faculty shall not be nominated under this sub clause;

- (iv) six teachers (including principals) of under- graduate courses from the colleges in the subject concerned, to be nominated by the Vice- Chancellor, by rotation, according to seniority, to be determined by the length of under-graduate teaching experience ensuring that there is not more than one such member from any one college; and
- (v) two outside experts to be nominated by the Vice- Chancellor on the recommendation of the Chairperson of the Department:

Provided that the Executive Council at the request of the Academic Council may increase the number of members of a Board of under-graduate studies, under sub-clause (iv) above.

- (3) The Board of post-graduate studies and research shall consist of-

- (i) the Chairperson of the Department;
- (ii) all the professors appointed or recognized by the University in the Department;
- (iii) two associate professor and two assistant professor appointed or recognized by the University in the Department to be nominated by the Vice-Chancellor, by rotation, according to seniority;
- (iv) two teachers including the Heads of the Post- Graduate Departments in colleges admitted to the privileges of the University in the subject concerned with at least ten years teaching experience, out of which five years shall be as a post-graduate degree teacher, to be nominated by the Vice-Chancellor, by rotation, according to seniority to be determined by the length of post-graduate teaching experience:

Provided that if the number of colleges having Post-Graduate Department is more than six, then one more teacher of the subject concerned shall be nominated but not more than one such member shall be from the same college; and

- (v) two outside experts to be nominated by the Vice-Chancellor, on the recommendation of the Chairman of the Department:

Provided that the Executive Council at the request of the Academic Council, may increase the number of members of a Board of post-graduate studies under sub-clause (iv) above.

- (4) (i) The Board of under-graduate studies shall recommend to the Academic Council, through the Faculty concerned, courses and syllabi of studies and text books for the various subjects for under-graduate courses and the Board of post-graduate studies shall make such recommendations in respect of the courses for post-graduate classes and research degrees;

- (ii) The Boards of Studies shall also make recommendations to the Academic Council, regarding the appointments of paper setters and examiners for the under-graduate or the post-graduate courses, as the case may be; and

- (iii) The Board of Studies shall deal with any other matter that may be referred to them by the Faculty. The Chairperson of the Department shall be the Chairperson of the Board. Members, other than ex- officio members, shall hold office for a term of two years:

Provided that a person whose book or any other publication is to be the subject of consideration before the Board, shall not be attached to the Board:

Provided further that a person who, in one way or the other, is involved in publication of cheap notes, guides or help books shall not be eligible to be a member of a Board of Studies.

Withdrawal of  
degree/diploma etc.

**31.** A degree, diploma, certificate and other academic distinctions may be withdrawn by the University-

- (a) if the candidature of the person concerned has been cancelled or result quashed in accordance with the manner laid down by the Ordinance; or

- (b) if the candidate has misbehaved at a convocation of the University;  
 Provided that the question whether a person has misbehaved in terms of this Statute shall be finally decided by the Vice-Chancellor; or
- (c) when sufficient evidence is laid before the Academic Council showing that any person on whom a degree or diploma etc. was conferred by the University has been convicted of what is in their opinion a serious offence, the Academic Council may recommend to the Executive Council that such a degree or diploma be cancelled.
- 32.** Approval, recognition to a teacher may be withdrawn by the University-  
 (a) if the teacher fails to perform duties in accordance with the manner laid down by the Ordinances; or  
 (b) if sufficient evidence is laid before the Executive Council that the teacher has committed an act which in their opinion is a serious offence, the Executive Council may withdraw approval, recognition of the teacher.
- 33.** The University shall provide for the benefits of its officers, teachers and other employees, gratuity, ex-gratia grant etc. on the pattern of the Government.
- 34.** The number and value of fellowships, scholarships, medals and prizes to be awarded shall be determined by the Executive Council either on its own initiative or on the recommendations of the Academic Council or the Finance Committee.
- 35.** (1) Notwithstanding anything contained in these Statutes, a person, who is a member of any authority or body of the University in his capacity as a member of a particular authority or body or as a holder of particular appointment, shall hold office so long only as he continues to be a member of that particular authority or body or the holder of that particular appointment, as the case may be:  
 Provided that teacher-member of any authority or body of the University who resigns his services or proceeds on leave for six months or more shall cease to be a member of the respective body and a substitute shall be appointed. If the period of his leave is less than six months, his membership shall be held in abeyance till his return or the expiry of the period of six months, whichever is later. No substitute member shall be appointed or elected, where the membership is held in abeyance.  
 (2) If a teacher is on leave for a period of six months or more, he shall not be eligible for nomination or re-election for that particular vacancy. He shall, however, be eligible for nomination or election in a vacancy which may arise after his return from leave.
- 36.** Notwithstanding anything contained in these Statutes or the Ordinances, no person, who has been convicted of any offence involving moral turpitude or has been dismissed for misconduct from a Government or Semi-Government institution or from a university or an educational institution of any kind, shall be eligible to become, or to continue as a member of any authority of the University or of any committee appointed by the University. A person under suspension shall not be allowed to sit in any meeting of the above authorities or committees during the period of his suspension.
- 37.** If a person is debarred by the Academic Council from any work of the University on account of any kind of malpractice on his part in connection with a University examination, such a person shall be disqualified to become, or to continue as a member of any body or authority of the University so long as the bar lasts.
- 38.** (1) The officers, teachers and other employees of the University may exercise, subject to the control of the Vice-Chancellor and the superior officers concerned, such administrative and financial powers, as the Executive Council may delegate through Ordinances, Rules, Regulations or by resolutions adopted by it.  
 (2) The Vice-Chancellor or the Registrar, with the approval of the Vice-Chancellor, may delegate to an officer, teacher or any other employee of the University such powers, as he considers necessary, which have been vested in them by the Statutes, Ordinances and Regulations.

Withdrawal of approval, recognition of teachers.

Gratuity, ex-gratia grant etc.

Fellowship, scholarship, medals and prizes.

Limitation of terms of membership.

Termination of membership etc.

Disqualification of membership.

Delegation of administrative and financial powers.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Making Haryana an educationally leading State has been the principal concern of the present State Government. The focus of the State Government is to provide affordable, equitable and need based quality education to all. Opportunities abound, yet the challenges are unprecedented. The higher education sector in Haryana has to respond to the dynamic changes happening all over the globe. A market driven approach, adopting emerging technologies, effective fund raising and deployment backed by the right policy framework by the Government is the key to boost the higher education sector. In the State, there is a great need for the creation and development of educational facilities for providing enhanced educational opportunities to the people of this area for which creation of a University at Gurugram is absolutely necessary.

There is no State institute of professional courses in whole of the region. The young girls and boys of this area have to go to other places for studies in general education, engineering and other professional courses. In the present scenario, there is a great demand for job oriented courses. In order to cater to this demand, there appears to be an urgent need for establishment of a University.

The establishment of this University would provide impetus for higher education in the State. It would make higher education relevant to the demands of changing industrial, professional and vocational scenario. Therefore, it has been considered necessary to make suitable enactment by the legislature of the State of Haryana for establishment of a State University at Gurugram.

Hence, this Bill.

---

RAM BILAS SHARMA,  
Education Minister, Haryana.

CHANDIGARH:  
The 3rd May, 2017.

R.K.NANDAL,  
Secretary.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clause 23 of the proposed bill provides for the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University. Clause 24 of the proposed bill empowers the Executive Council to frame the Statutes with the approval of Chancellor. Clause 26 of the proposed bill delegates the power to the Executive Council to frame the Ordinances. Similarly, Clause 27 of the bill delegates the powers to the authorities of the University to make regulations to carry out the purposes of the Act. This delegation of power to the authorities is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under Rule 126 of the Rule of the Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2017 का विधेयक संख्या—22 एच०एल०ए०

## गुरुग्राम विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर शिक्षा, वाणिज्य, मानविकी, प्रबन्धन

अध्ययन के उभरते क्षेत्रों में विशेष महत्व सहित उच्चतर शिक्षा

को सुकर बनाने तथा उन्नत करने के लिए तथा

इन और संबंधित क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्राप्त

करने के लिए गुरुग्राम में अध्यापन एवं

सम्बन्धक विश्वविद्यालय स्थापित

तथा निगमित करने हेतु

## विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा  
प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम गुरुग्राम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।  
(2) यह ऐसी तिथि को लागू होगा जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में तथा इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) “महाविद्यालय” से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों द्वारा अनुरक्षित, या से अनुमति प्राप्त कोई महाविद्यालय;
  - (ख) “कर्मचारी” से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा सभी अन्य अमला भी शामिल हैं;
  - (ग) “सरकार” से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;
  - (घ) “संस्था” से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों द्वारा अनुरक्षित, या से अनुमति प्राप्त महाविद्यालय न होते हुए, कोई शैक्षणिक संस्था;
  - (ङ) “प्रधानाचार्य” से अभिप्राय है, किसी महाविद्यालय या संस्था का अध्यक्ष तथा इसमें शामिल है, जब कोई प्रधानाचार्य नहीं है, तो ऐसे रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त उप-प्रधानाचार्य तथा प्रधानाचार्य या उप-प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में, प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति ;
  - (च) “मान्यताप्राप्त अध्यापक” से अभिप्राय है, ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था में विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया गया है;
  - (छ) “परिनियमों”, “अध्यादेशों” तथा “विनियमों” से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम;
  - (ज) “विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन यथा निगमित गुरुग्राम विश्वविद्यालय; तथा
  - (झ) “विश्वविद्यालय अध्यापक” से अभिप्राय है, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य तथा ऐसा अन्य व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा प्रदान करने या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया जाए तथा अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया गया है।

निगमन।

3. (1) कुलाधिपति, कुलपति, संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के सदस्यों और सभी व्यक्तियों, जो इसके बाद, ऐसे अधिकारियों अथवा सदस्यों के रूप में बनें या नियुक्त किए जाएं, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता पर बने रहें, से मिलकर गुरुग्राम विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय होगा।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उसे सम्पति अर्जित, धारण तथा व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी, और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा या उस पर उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा ।

**4.** (1) क्षेत्र की सीमायें जिनके भीतर विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा ऐसी होंगी, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, समय—समय पर, विनिर्दिष्ट करें। शक्तियों का क्षेत्रीय प्रयोग ।

परन्तु भिन्न—भिन्न संकायों के लिए भिन्न—भिन्न क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं ।

(2) उस समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उप—धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित कोई महाविद्यालय ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाये, से विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से सहयुक्त तथा अनुमति प्राप्त समझा जायेगा तथा वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य विश्वविद्यालय के किन्हीं विशेषाधिकारों से सहयुक्त या अनुमति प्राप्त नहीं रहेगा तथा भिन्न—भिन्न महाविद्यालयों के लिये भिन्न—भिन्न तिथियां अधिसूचित की जा सकती हैं:

परन्तु—

- (i) उक्त तिथि से पूर्व अन्य विश्वविद्यालय से सहयुक्त या अनुमति प्राप्त किसी महाविद्यालय का कोई विद्यार्थी, जो उस विश्वविद्यालय की किसी उपाधि या उपाधि—पत्र परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था, उसकी तैयारी के संबंध में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा और विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के लिये, उस विश्वविद्यालय में लागू अध्ययन के पाठ्यचर्या के अनुसार, ऐसी अवधि, जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित की जाए, के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा; तथा
- (ii) कोई ऐसा विद्यार्थी, जब तक कोई ऐसी परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं की जाती है, अन्य विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट किया जा सकता है और उसे उस विश्वविद्यालय की ऐसी उपाधि, उपाधि—पत्र या कोई अन्य विशेषाधिकार प्रदत्त किया जा सकता है, जिसके लिए वह ऐसी परीक्षा के परिणाम पर अर्हता प्राप्त करता है ।

**5.** (1) इस अधिनियम तथा उस समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय से भिन्न कोई भी व्यक्ति या संस्था, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उसको सौंपे गए ज्ञान के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कोई उपाधि, उपाधि—पत्र या प्रमाण—पत्र प्रदत्त, अनुदत्त या जारी नहीं करेगा / करेगी, या स्वयं को कोई ऐसी उपाधि, उपाधि—पत्र या प्रमाण—पत्र प्रदत्त, अनुदत्त या जारी करने के लिए हकदारी प्रकट नहीं करेगा / करेगी, जो उस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त, अनुदत्त या जारी की गई किसी उपाधि, उपाधि—पत्र या प्रमाण—पत्र के समरूप हो या उसकी मिलती—जुलती नकल का हो ।

अप्राधिकृत संस्थाओं  
द्वारा उपाधियों,  
उपाधि—पत्रों या  
प्रमाण—पत्रों को  
प्रदत्त करने, अनुदत्त  
करने या जारी करने  
पर वर्जन ।

(2) उप—धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन अपराध होगा ।

(3) जहाँ इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया हो, तो वहां अपराध किए जाने के समय, संस्था के कार्य के संचालन के लिए इसका कार्यभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, अपराध के दोष के रूप में समझा जायेगा और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होगा ।

(4) उप—धारा (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस धारा के अधीन अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया हो तथा यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध संस्था के किसी भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, अथवा अपराध का किया जाना उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जाता है, वहाँ ऐसा भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोष के रूप में समझा जायेगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा ।

**व्याख्या—** इस धारा के प्रयोजन के लिए “संस्था” से अभिप्राय है, कोई निगमित निकाय और इसमें शामिल है कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम ।

विश्वविद्यालय की  
शक्तियां तथा कृत्य।

- 6.** विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्—
- (क) विद्या की ऐसी शाखाओं जिन्हें विश्वविद्यालय ठीक समझे में अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए व्यवस्था करना, तथा विद्या और ज्ञान के प्रसार के अभिवर्धन लिए ऐसे कदम उठाना जो वह आवश्यक समझता है;
  - (ख) परीक्षाएं आयोजित करना तथा व्यक्तियों, जो परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों में अधिकथित किए जाएं, को ऐसी उपाधियां, उपाधि-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियां या मानोपाधियां प्रदान करना;
  - (ग) अनुमोदित व्यक्तियों को परिनियमों में अधिकथित की गई रीति में सम्मानिक उपाधियां अथवा अन्य विशेष उपाधियां प्रदत्त करना;
  - (घ) पुरस्कार, पदक, अनुसंधान, अध्ययन-वृत्तियां, छात्र-सहायता वृत्तियां तथा अर्थेता-वृत्तियां संस्थित करना;
  - (ङ.) सरकार से उपहार, दान या धर्मदान प्राप्त करना तथा अंतरकों, दाताओं, वसीयतकर्ताओं, जैसी भी स्थिति हो, से चल या अचल सम्पत्ति के उपहार, दान तथा अन्तरण प्राप्त करना; और विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए इस प्रकार प्राप्त दानों से ऐसे कायिक निधि का सृजन करना;
  - (च) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्रधानाचार्य पद, आचार्य पद, सह-आचार्य पद, सहायक आचार्य पद संस्थित करना और किसी किस्म के अन्य पद सृजित करना और ऐसे पदों पर व्यक्ति नियुक्त करना;
  - (छ) भारत तथा विदेश में, विश्वविद्यालय के समान उद्देश्य रखने वाली उन शिक्षा संबंधी तथा अन्य संस्थाओं को ऐसी रीति में सहयोग देना जो उनके सामूहिक लक्ष्यों में सहायक हों;
  - (ज) ऐसे व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय के सदस्य न हों, के लिए पत्राचार शिक्षा तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों सहित शिक्षण की व्यवस्था करना, जो वह अवधारित करें;
  - (झ) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्तियों को मान्यता देना;
  - (ज) धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अवस्थित या, उस धारा की उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन इसके विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा अन्तर्रक्षित महाविद्यालय, किन्तु उक्त क्षेत्र के भीतर अवस्थित महाविद्यालयों का अनुरक्षण करना तथा उसे वापस लेना;
  - (ट) किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग को स्वायत्त महाविद्यालय या संस्था या विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में घोषित करना;
  - (ठ) सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना;
  - (ड) विश्वविद्यालय के तथा विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के विद्यार्थियों के निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा विनियमन करना;
  - (ढ) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित किसी सम्पत्ति की कार्यवाही, ऐसी रीति जो विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए ठीक समझे, में करना;
  - (ण) अल्प तथा दीर्घकालिक दोनों के आधार पर, विषयों, विशेष क्षेत्रों, शिक्षा स्तरों तथा मानव शक्ति के प्रशिक्षण के अनुसार राज्य तथा देश की जरूरतों का मूल्यांकन करना तथा उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम आरम्भ करना;
  - (त) विद्या की ऐसी शाखाओं, जो विश्वविद्यालय उचित समझे, में प्रवृत्तियों के गहन ज्ञान पर अधारित प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा उच्च अध्ययनों को आयोजित करना;
  - (थ) ऐसे अनुसंधान, रूपांकन (डिजाईन) तथा विकासात्मक क्रियाकलापों को उन्नत करना जो सामाजिक जरूरतों तथा राज्य के विकास कार्यक्रमों से संबंध रखते हों;

- (द) पूरक सुविधाएं देने के लिए उद्योगों तथा सरकारी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उपाय प्रारम्भ करना;
- (ध) ज्ञान देने, प्रशिक्षण का आयोजन करने तथा पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्य शिक्षा संबंधी सामग्रियों को तैयार करने में निरन्तर प्रयोग का प्रबंध करना;
- (न) शिक्षात्मक उपायों में विषयों के निरन्तर मूल्यांकन तथा पुनः अनुकूलन के उत्तरोत्तर प्रवेश के लिए प्रबंध करना;
- (प) अपने विद्यार्थियों में उद्यम संबंधी योग्यता को बढ़ावा देना;
- (फ) विद्या की प्रगति तथा ज्ञान के प्रसार के लिए आवश्यकता तथा अवसरों के बारे में जनता को शिक्षित करना;
- (ब) महिला विद्यार्थियों तथा समाज के ऐसे कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों से संबंधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध करना, जो विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;
- (भ) पूर्वोक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए परिनियम, अध्यादेश अथवा विनियम बनाने तथा उन्हें परिवर्तित, उपार्तित या विखण्डित करने;
- (म) ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी अथवा किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

7. विश्वविद्यालय लिंग, मूलवंश, पंथ, जाति अथवा वर्ग को विचार में लाए बिना सभी के लिए खुला होगा तथा सदस्यों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मकारों को प्रविष्ट अथवा नियुक्त करने में अथवा किसी अन्य संबंध में, चाहे जो भी हो, धर्म, विश्वास अथवा वृत्ति के बारे में, कोई भी परीक्षा थोपी नहीं जाएगी या शर्त नहीं लगाई जाएगी और ऐसा कोई भी धर्मदान स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसमें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की राय में, इस उपबंध के भाव तथा उद्देश्यों के विरुद्ध शर्त अथवा बाध्यताएं आती हों:

परन्तु इस धारा में दी गई कोई भी बात विश्वविद्यालय को समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के बारे में कोई विशेष उपबंध करने से रोकने वाली नहीं समझी जायेगी ।

विश्वविद्यालय का सभी मूलवंशों, वर्गों, जातियों तथा पंथों के लिए खुला होना ।

8. विश्वविद्यालय में सारा अध्यापन, विश्वविद्यालय द्वारा तथा उसके नाम पर इस निमित्त बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुसार चलाया जाएगा।

विश्वविद्यालय का अध्यापन।

9. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्—

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

- (i) कुलाधिपति;
- (ii) कुलपति;
- (iii) कुल-सचिव (रजिस्ट्रार); और
- (iv) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किए जाएं।

10. (1) हरियाणा के राज्यपाल अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे । कुलाधिपति ।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होगा ।

(3) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हों, उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह तथा संसद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(4) कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे—

- (i) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें वह निर्दिष्ट करे, द्वारा विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं तथा उपकरणों का तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था का तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, किए गए या करवाये गये अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवाना; और

(ii) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के वित्त प्रबन्धन से संबंधित किसी मामले के बारे में वैसी ही रीति में की जाने वाली जांच करवाना ।

(5) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, कराए जाने वाले निरीक्षण या की जाने वाली जांच के अपने आशय का विश्वविद्यालय को नोटिस देगा और ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर, विश्वविद्यालय को कुलाधिपति को ऐसा अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(6) विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, कुलाधिपति ऐसा निरीक्षण या जांच करवा सकता है जो उप-धारा (4) में निर्दिष्ट है ।

(7) जहां कुलाधिपति द्वारा किए जाने वाला कोई निरीक्षण या जांच करवाई गई हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रहने और सुनवाई किए जाने का अधिकार होगा ।

(8) कुलाधिपति, यदि विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था के बारे में निरीक्षण या जांच की गई है, तो ऐसे निरीक्षण या जांच के निष्कर्ष के संदर्भ में, कुलपति को संबोधित करेगा, और कुलपति, कुलाधिपति के दृष्टिकोण तथा कुलाधिपति द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार उस पर की जाने कार्रवाई कार्य परिषद् को संसूचित करेगा ।

(9) कार्य परिषद्, कुलाधिपति को कुलपति के माध्यम से, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के निष्कर्ष पर करने का प्रस्ताव करती है या कर चुकी है, संसूचित करेगी ।

(10) जहां कार्य परिषद्, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति की संतुष्टि के अनुसार कार्रवाई नहीं करती, तो कुलाधिपति, कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो वह ठीक समझे और कार्य परिषद् ऐसे निर्देशों का पालन करेगी ।

(11) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित में आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को निष्प्रभाव कर सकता है, जो उसकी राय में, इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप न हों:

परन्तु कोई ऐसा आदेश करने से पहले, वह विश्वविद्यालय से कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि क्यों न ऐसा आदेश किया जाये, और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण दिया गया है, तो वह उस पर विचार करेगा ।

(12) कुलाधिपति, किसी भी समय, विश्वविद्यालय से इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा कर सकता है या निर्देश दे सकता है ।

(13) उप-धारा (11) तथा (12) के अधीन कुलाधिपति द्वारा प्रयोग की गई शक्तियां, किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जायेंगी ।

(14) विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, जो उसके विरुद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में कार्य परिषद् या कुलपति के निर्णय से व्यक्ति हो, कुलाधिपति को अभ्यावेदन ऐसी रीति में संबोधित कर सकता है जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाये और कुलाधिपति का निर्णय अन्तिम होगा ।

(15) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें ।

कुलपति ।

11. (1) कुलपति केवल शैक्षणिक तर्कों पर नियुक्त किया जायेगा। वह ऐसे वचनबद्ध मूल्यों जिसके लिए विश्वविद्यालय स्थापित है तथा अपनी शैक्षणिक योग्यता, प्रशासनिक सक्षमता तथा नैतिक महत्त्व द्वारा विश्वविद्यालय को नेतृत्व उपलब्ध करवाने की योग्यता रखने वाला कोई विख्यात शिक्षाविद् होगा ।

(2) सरकार, कुलाधिपति के एक नामनिर्दिष्ट तथा कार्य परिषद् के दो नामनिर्दिष्टियों को मिलाकर कोई चयन समिति गठित करेगी, जो वर्णनुक्रम में कम से कम तीन नामों का कोई पैनल तैयार करेगी, जिसमें से कुलाधिपति, सरकार के परामर्श पर, कुलपति नियुक्त करेगा। कुलपति की सेवा के निवंधन तथा शर्तें, सरकार के परामर्श पर, कुलाधिपति द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।

(3) कुलाधिपति, सरकार के परामर्श पर, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार की जाने वाली कोई जांच करवा सकता है तथा कुलपति को पद से हटा सकता है, यदि वह, ऐसी जांच पर, ऐसे पद पर प्रत्यक्ष रूप से बने रहने के अयोग्य व्यक्ति पाया जाता है।

(4) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसे एक अवधि से अधिक के लिए नवीकृत नहीं किया जा सकता:

परन्तु कोई भी व्यक्ति, यदि उसने अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, को कुलपति के पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा अथवा पद पर बना नहीं रहेगा।

(5) यदि कुलपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनी अस्थाई अशक्तता के फलस्वरूप अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, या कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है, जब तक वर्तमान कुलपति अपना पद पुनः ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं हो जाता है, या जब तक कोई नियमित कुलपति नियुक्त नहीं किया जाता है, जैसी भी स्थिति हो, कुलाधिपति, कुलपति के कर्तव्यों को करने के लिए ऐसा प्रबन्ध कर सकता है।

(6) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी तथा शिक्षा अधिकारी होगा और उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण होगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरण के निर्णयों को लागू करेगा।

(7) कुलपति, यदि उसकी राय हो कि किसी मामले पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह संकाय, विभाग या पद के सृजन अथवा समाप्ति को अन्तर्वलित करने वाले मामलों, किसी कर्मचारी की नियुक्ति या उसे हटाए जाने वाले मामले के सिवाय, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को प्रदत्त की गई किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है:

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने से पहले कुलपति कारण अभिलिखित करेगा कि मामले में सम्बद्ध प्राधिकरण की बैठक तक इन्तजार क्यों नहीं किया जा सकता:

परन्तु यह और कि यदि सम्बद्ध प्राधिकरण की राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है, जिसका निर्णय उस पर अन्तिम होगा:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी भी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई किसी कार्रवाई से व्यक्ति है, उसे ऐसी कार्रवाई पर निर्णय की संसूचना की तिथि से एक मास के भीतर कार्य परिषद् के पास प्रतिवेदन करने का अधिकार होगा और उस पर कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट कर सकती है, उपांतरित कर सकती है या उल्ट सकती है। कर्मचारी को सूचित किया जायेगा कि कार्रवाई आपात शक्तियों के अधीन की गई है।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

**12.** (1) कुल-सचिव सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा। कुल-सचिव ।

(2) कुल-सचिव, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह प्रत्यक्ष रूप से कुलपति के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

**13.** इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रथम कुलपति और प्रथम कुल-सचिव सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा ऐसी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जो सरकार द्वारा समुचित समझा जाए। प्रथम कुलपति और प्रथम कुल-सचिव की नियुक्ति ।

**14.** विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जो अधिनियमों द्वारा विहित किये जाएं। अन्य अधिकारी ।

**15.** इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना कोई अध्यापन और अध्यापनेत्तर पद सृजित नहीं करेगा या अध्यापन और अध्यापनेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित नहीं करेगा। अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर पदों का सृजन ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण ।

**16.** विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:-

- (i) संसद;
- (ii) कार्य परिषद;
- (iii) शिक्षा परिषद;
- (iv) वित्त समिति;
- (v) संकाय;
- (vi) शिक्षा योजना बोर्ड; और
- (vii) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के रूप में घोषित किए जाएँ।

संसद ।

**17.** (1) संसद का गठन तथा इसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जायेगी ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात्:-

- (क) विश्वविद्यालय की मुख्य नीतियों तथा कार्यक्रमों का, समय—समय पर, पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिए उपाय सुझाना;
- (ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक बजट, वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की लेखा—परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना तथा संकल्प पारित करना;
- (ग) कुलाधिपति को किसी भी ऐसे मामले के बारे में परामर्श देना जो उसे परामर्श के लिए निर्दिष्ट किया जाए; और
- (घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ ।

कार्य परिषद ।

**18.** (1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा ।

(2) कार्य परिषद का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ:

शिक्षा परिषद ।

**19.** (1) शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा, और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की सभी शिक्षा नीतियों का समन्वय करेगा तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगा ।

(2) शिक्षा परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ:

संकाय ।

**20.** संकायों के गठन तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ ।

वित्त समिति ।

**21.** वित्त समिति का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ ।

शिक्षा योजना बोर्ड ।

**22.** शिक्षा योजना बोर्ड का गठन तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ ।

परिनियम तथा उनका क्षेत्र ।

**23.** इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:-

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों, जो समय—समय पर गठित किए जाएँ, का गठन, शक्तियां तथा कृत्य;
- (ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अधिकारियों का वर्गीकरण, नियुक्ति का ढंग, शक्तियां तथा कर्तव्य;
- (ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिनमें उनके लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि या बीमा योजना के लिए उपबंध शामिल हैं;

- (घ) सम्मानिक उपाधियां प्रदत्त करना;
- (ङ.) संकायों तथा विभागों की स्थापना तथा समाप्ति;
- (च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, छात्र-सहायता वृत्तियां, पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना;
- (छ) विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना;
- (ज) शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों तथा संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों की अनुमति दी जा सकती है तथा उन्हें वापिस लिया जा सकता है;
- (झ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और
- (ञ) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किए जाने हैं अथवा परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जा सकते हैं।

**24.** (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, विश्वविद्यालय के परिनियम वे होंगे, जो अनुसूची में दिए गए हैं: परिनियम कैसे बनाएं ।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व बनाए गए परिनियमों के अधीन गठित विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन सभी शक्तियों का प्रयोग तथा सभी कर्तव्यों का पालन तब तक करते रहेंगे जब तक ऐसे प्राधिकरण ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची में बनाए गए परिनियमों के अनुसार गठित नहीं किए जाते हैं।

(2) सरकार या कार्य परिषद्, समय—समय पर, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या इस धारा में इसमें, इसके बाद, उपबंधित रीति में, परिनियमों को संशोधित अथवा निरसित कर सकती है:

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की हैसीयत, शक्तियां या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को तब तक नहीं बनाएगी, संशोधित या निरसित नहीं करेगी, जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित में राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो, और इस प्रकार अभिव्यक्त की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा ।

(3) शिक्षा परिषद्, कार्य परिषद् को शैक्षणिक विषयों से संबंधित किसी परिनियम के प्रारूप को कार्य परिषद् के विचार के लिए प्रस्तावित कर सकती है ।

(4) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियम में परिवर्धन अथवा किसी परिनियम के किसी संशोधन अथवा निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो इसे स्वीकृत, अस्वीकृत कर सकता है अथवा इस पर आगे विचार करने के लिए इसे लौटा सकता है । सरकार या कार्य परिषद् द्वारा पारित किसी परिनियम की तब तक विधिमान्यता नहीं होगी जब तक इसे कुलाधिपति द्वारा सहमति न दे दी गई हो ।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्ररेणा से या सरकार के परामर्श पर, उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में, कार्य परिषद् को परिनियमों को बनाने, संशोधित करने या निरसन करने का निर्देश दे सकता है और यदि कार्य परिषद्, इसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसे निर्देश को कार्यान्वित करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में कार्य परिषद् द्वारा अपनी अक्षमता के लिए संसूचित कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, परिनियम उचित रूप से बना सकता है, संशोधित कर सकता है या निरसित कर सकता है ।

**25.** इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अध्याधीन, अध्यादेश निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:— अध्यादेश तथा उनका क्षेत्र ।

- (क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का दाखिला तथा उनका ऐसे रूप में पंजीयन ;
- (ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा उपाधि—पत्रों के लिए दाखिला तथा आगे फीस ढांचे को उत्तरोत्तर इस प्रकार लचीला बनाना कि पाठ्यक्रम सम्बन्धीय सीमा तक स्वतः वित्तपोषण हो सके;

- (ग) शर्तें, जिनके अधीन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की उपाधि अथवा उपाधि-पत्र या अन्य पाठ्यक्रमों तथा परीक्षाओं में दाखिला दिया जाएगा तथा ऐसी उपाधियों और उपाधि-पत्रों के लिए पात्रता;
- (घ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों, उपाधि-पत्रों तथा अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें तथा आगे फीस के ढांचे को उत्तरोत्तर इस प्रकार लचीला बनाना कि संभव सीमा तक पाठ्यक्रम स्वतः वित्तपोषित हो सकें;
- (ङ.) अध्येता-वृत्तियां, छात्र-वृत्तियां, छात्र-सहायता वृत्तियां, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;
- (च) परीक्षाओं का संचालन, जिसमें परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों तथा अनुसीमकों की पदावधि तथा नियुक्ति की रीति तथा कर्तव्य सम्मिलित हैं;
- (छ) विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें; तथा
- (ज) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा बनाए जाने हैं अथवा अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जा सकते हैं।

अध्यादेश कैसे  
बनाएं।

- 26.** (1) अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा बनाए, संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जायेंगे:  
परन्तु कोई भी ऐसा अध्यादेश—

- (i) जो विद्यार्थियों के दाखिले या उनके पंजीयन को अथवा विहित परीक्षाओं को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बराबर मान्यता दिए जाने को प्रभावित करने वाला हो; और
- (ii) जो परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें, ढंग या कर्तव्यों या परीक्षाओं अथवा किन्हीं अध्ययन पाठ्यक्रमों के संचालन या स्तर को प्रभावित करने वाला हो,

तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक ऐसे अध्यादेश का प्रारूप शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है।

- (2) कार्य परिषद् उपधारा (1) के अधीन शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को, अपने सुझावों सहित, या तो पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में, पुनर्विचार के लिए शिक्षा परिषद् को लौटा सकती है:

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित प्रारूप को स्वयं संशोधित नहीं करेगी। तथापि, वह ऐसे प्रारूप को, जब उसे शिक्षा परिषद् द्वारा दूसरी बार इसे प्रस्तुत किया जाये, अस्वीकार कर सकती है, यदि उपयुक्त नहीं पाया जाता।

- (3) कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश, ऐसी तिथि से प्रभावी होंगे, जो वह निर्दिष्ट करे और बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश कुलाधिपति को, यथाशीघ्र, संसूचित किया जाएगा।

विनियम।

- 27.** (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम बना सकते हैं, जो—

- (क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करेंगे; और
- (ख) ऐसे सभी मामले उपबंधित करेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के माध्यम से विनियमों द्वारा विहित किए जाने हैं।

- (2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को बैठकों की तिथियों तथा बैठकों में विचार किए जाने वाले कार्य की सूचना देने के लिए और बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने के लिए उपबंध करने वाले विनियम बनाएगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

- 28.** विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान बनाए गए विस्तृत कार्यक्रमों, नीतियों तथा वित्त व्यवस्थाओं, परिनियमों तथा अध्यादेशों के संशोधन का विवरण देते हुए, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी और संसद को ऐसी तिथि को या इसके बाद, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, प्रस्तुत की जाएगी और संसद अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

**29.** (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार तथा अधिक से अधिक पन्द्रह मास के अन्तरालों पर निदेशक, स्थानीय लेखा—परीक्षा, हरियाणा या किसी अन्य लेखा—परीक्षक, जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये, द्वारा लेखा—परीक्षित किया जाएगा। वार्षिक लेखे, लेखा—परीक्षित किए जाने पर हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और वार्षिक लेखों की प्रति निदेशक, स्थानीय लेखा—परीक्षा, हरियाणा अथवा लेखा—परीक्षक की रिपोर्ट सहित, संसद तथा कुलाधिपति को कार्य परिषद् की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत की जाएगी। वार्षिक लेखों पर कुलाधिपति द्वारा की गई कोई टिप्पणी संसद के ध्यान में लाई जाएगी तथा संसद की टिप्पणियां, यदि कोई हों, कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के बाद, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन पत्र कुलाधिपति को उनके प्रस्तुतीकरण के समय सरकार को भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

**30.** (1) कुलपति के सिवाय, प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा अध्यापक, लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायगी तथा विश्वविद्यालय और किन्हीं अधिकारियों या अध्यापकों के बीच संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद संबंधित अध्यापक या अधिकारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर माध्यस्थम् अधिकरण जो कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य तथा कुलपति का एक नामनिर्देशिती को मिलाकर बने, को निर्दिष्ट किया जाएगा। अधिकरण के सदस्यों के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा और अधिकरण द्वारा निर्णीत विषय के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं हो सकेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा अनुरोध, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 26), के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए निवेदन के रूप में समझा जाएगा।

**31.** (1) विश्वविद्यालय जैसा वह उचित समझे, अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी पेंशन, भविष्य निधि तथा बीमा निधि संस्थित करेगा।

(2) जहां कोई भविष्य निधि और बीमा निधि इस प्रकार गठित की गई है, वहां भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम 19), के उपबंध इसको ऐसे लागू होंगे, मानो यह सरकारी भविष्य निधि थी।

**32.** इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय द्वारा किया गया कोई भी कार्य, अथवा की गई कोई कार्यवाही केवल निम्नलिखित आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी—

- (क) प्राधिकरण या निकाय के गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि; या
- (ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम—निर्देशन अथवा नियुक्ति में किसी त्रुटि या अनियमितता; या
- (ग) मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाले ऐसे कार्य या कार्यवाही में किसी त्रुटि या अनियमितता।

**33.** यदि कोई सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या ऐसा सदस्य बने रहने का हकदार है, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

**34.** यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की पहली बैठक के संबंध में, या अन्यथा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रथम बार प्रभाव देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, किसी भी समय, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का गठन किए जाने से पहले, आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकती है, या ऐसी कोई बात कर सकती है जो इस अध्यादेश के उपबंधों से, जहां तक हो सके, संगत हो, जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजनों के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और प्रत्येक ऐसा आदेश, उसी प्रकार प्रभावी होगा मानो ऐसी नियुक्ति या कार्रवाई इस अधिनियम में उपबंधित रीति में की गई थी।

**35.** विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी बात, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

वार्षिक लेखे।

अधिकारियों तथा अध्यापकों की सेवा शर्त।

पेंशन, भविष्य निधि और बीमा निधि।

रिक्तियों के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

## उद्देश्य और कारणों का विवरण

हरियाणा को शैक्षणिक रूप से अग्रणी राज्य बनाना वर्तमान राज्य सरकार की मुख्य चिंता है। राज्य सरकार का ध्यान सभी को सस्ती, न्यायसंगत और आवश्यक आधारभूत शिक्षा प्रदान करना है। सभावनाएं प्रचुर हैं, लेकिन चुनौतियां भी अभूतपूर्व हैं। हरियाणा के उच्च शिक्षा क्षेत्र को दुनिया भर में हो रहे गतिशील परिवर्तनों का उत्तर देना होगा। उभरती हुई तकनीकों को अपनाने, बाजार द्वारा संचालित डृष्टिकोण, प्रभावी निधि बढ़ाने और सरकार द्वारा सही नीति ढांचे द्वारा समर्थित तैनाती हरियाणा में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में गुणवत्ता और मात्रा के मामले में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अविश्वसनीय विस्तार हुआ है।

लगातार मांग पर, हरियाणा विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों के साथ महाविद्यालयों की सम्बद्धता की समीक्षा सरकार द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कई राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की है ताकि सकल नामांकन अनुपात में सुधार किया जा सके और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता मानदंडों में सुधार किया जा सके। उच्च शिक्षा संस्थान के प्रसार को विनियमित करने के लिए, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को पुनः विचार गया है। आईसीटी और ई-लर्निंग के इस युग में, हमें विश्वविद्यालयों के लिए गुणवत्ता के मानदंड तैयार करने की आवश्यकता है ताकि वे गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना पाठ्यक्रम संचालित कर सकें। राज्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अनुसार महाविद्यालयों का पुनः वितरण, समाज के सभी वर्गों की पहुंच में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेगी। यह भी महसूस किया गया है कि एकल राज्य विश्वविद्यालय से शिक्षा के सभी महाविद्यालयों को संबद्ध करना प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक और तर्कसंगत वांछनीय नहीं है।

इसलिए, हरियाणा राज्य की विधायिका द्वारा मौजूदा चौथी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2014 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए आवश्यक माना है।

इसलिए, यह विधेयक।

राम बिलास शर्मा,  
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:  
दिनांक 3 मई, 2017.

आर. के. नांदल,  
सचिव।

**अनुसूची**  
 (गुरुग्राम विश्वविद्यालय के परिनियम)  
 (देखिये धारा 24),

1. (i) कुलपति, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा, और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, उपाधियां प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षान्त समारोहों और संसद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की किसी बैठक में उपस्थित होने और उसे सम्बोधित करने का हकदार होगा, किन्तु जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो, वहां पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।
- (ii) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और वह ऐसी पालना सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगा।
- (iii) कुलपति को संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् तथा वित्त समिति तथा विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय की बैठकें बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।
- (iv) कुलपति, विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णयों को कार्यरूप देगा।
- (v) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों या निकायों में नाम—निर्देशन के लिये वरिष्ठता के बारे में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।
2. (i) कुल—सचिव, कार्य परिषद् तथा संकायों का पदेन सचिव होगा किन्तु इन प्राधिकरणों में से कुल—सचिव। किसी का भी सदस्य नहीं समझा जायेगा, और वह संसद और शिक्षा परिषद् का पदेन सदस्य—सचिव होगा।
- (ii) जब कुल—सचिव का पद रिक्त हो जाता है या जब कुल—सचिव बीमारी के कारण, अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, तो जब तक सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियमित नियुक्ति नहीं की जाये, पद के कर्तव्य ऐसे व्यक्ति द्वारा निभाए जायेंगे, जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिये अस्थाई रूप से नियुक्त करें :  
 परन्तु जहां रिक्त के विरुद्ध अस्थाई व्यवस्था की गई है, तो ऐसी अस्थाई व्यवस्था के लिए अवधि छह मास से अधिक नहीं होगी और कुल—सचिव की नियुक्ति इस अवधि के भीतर की जाएगी।
- (iii) कुल—सचिव का कर्तव्य होगा कि वह —
- (क) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति, जो कुलपति उसके प्रभार में सौंपे, का अभिरक्षक होगा ;
  - (ख) संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद्, संकायों और विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति की बैठकें बुलाने के सभी नोटिस जारी करेगा ;
  - (ग) संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद्, संकायों और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखेगा ;
  - (घ) संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् तथा संकायों के शासकीय पत्र व्यवहार का संचालन करेगा;
  - (ङ) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त की प्रतियां, उनके जारी होते ही यथाशीघ्र भेजेगा ; तथा
  - (च) ऐसे अन्य कर्तव्य जो कुलपति द्वारा, समय—समय पर, उसे सौंपे जायें, का पालन करेगा।
- (iv) कुल—सचिव को विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा शैक्षणिक अमले, जो कार्य परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें, को छोड़कर, ऐसे कर्मचारियों को चेतावनी देने या परिनिर्दा की शास्ति अधिरोपित करने या वेतनवृद्धियां रोकने तथा लंबित जांच के दौरान उन्हें निलम्बित करने की शक्ति होगी :

परन्तु ऐसी कोई भी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कारण बताने का नियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

- (v) खण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट किन्हीं शास्तियों को अधिरोपित करने के लिये कुल-सचिव के किसी आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी।
- (vi) यदि जांच से प्रकट होता है कि दण्ड कुल-सचिव की शक्तियों से परे का है, तो कुल-सचिव जांच के निष्कर्ष पर अपनी सिफारिशों सहित कुलपति को रिपोर्ट करेगा :  
परन्तु कुलपति के किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील कार्य परिषद् को होगी।
- (vii) कुल-सचिव विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने तथा अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी होगा और ऐसी हैसियत में कार्य करेगा जब विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकरण द्वारा मामले में निर्णय ले लिया गया हो। कुल-सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें।

अन्य अधिकारी।

3. विश्वविद्यालय की सेवा में निम्नलिखित व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में भी घोषित किया जाता है, अर्थात् :—

- (क) कुलानुशासक (प्रॉफेटर) ;
- (ख) मुख्य रक्षक (चीफ वार्डन) ;
- (ग) विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष, यदि कोई हो ;
- (घ) अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले ;
- (ङ) महाविद्यालयों का अध्यक्ष ;
- (च) पुस्तकाध्यक्ष ;
- (छ) परीक्षा नियंत्रक ; और
- (ज) वित्त अधिकारी।

कुलानुशासक, मुख्य रक्षक, विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष, अध्यक्ष शैक्षणिक मामले।

4. कुलानुशासक, मुख्य रक्षक, विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष तथा अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले की नियुक्ति, कुलपति की सिफारिश पर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से, जो प्राचार्य की पदवी से नीचे के न हों, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसा कि कुलपति कार्य परिषद् को सिफारिश करें, कार्य परिषद् द्वारा की जायेगी :

परन्तु अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले की अवधि दो वर्ष की होगी जो कुलपति की सिफारिशों पर, कार्य परिषद् द्वारा, यदि उचित समझे, दूसरे एक वर्ष के लिए विस्तारयोग्य होगी।

महाविद्यालयों का अध्यक्ष।

5. महाविद्यालयों का अध्यक्ष, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा कुलपति की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वह ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कुलपति द्वारा, समय-समय पर, उसे सौंपे जाएं।

वित्त अधिकारी।

6. (1) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा चयन समिति की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, किन्तु ऐसी समिति के सदस्य के रूप में नहीं समझा जायेगा।

(3) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो जाता है या जब वित्त अधिकारी बीमारी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्य करने में असमर्थ हो, तो अधिकारी के कर्तव्य ऐसे व्यक्ति द्वारा किये जायेंगे, जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे।

- (4) वित्त अधिकारी—
- (क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा तथा विश्वविद्यालय को इसकी वित्तीय नीतियों के सम्बन्ध में परामर्श देगा; तथा
  - (ख) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जायें या जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- (5) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी—
- (क) न्यास तथा दान की गई सम्पत्ति सहित विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निवेशों को धारण करेगा तथा प्रबन्ध करेगा;
  - (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आवर्तक तथा अनावर्तक खर्च वित्त समिति द्वारा वर्ष के लिये नियत सीमाओं से अधिक न हो तथा सभी धन उसी प्रयोजनार्थ खर्च किये जाएं जिनके लिये वे प्रदान अथवा आबंटित किए गए हैं;
  - (ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा बजट तैयार करने और उन्हें कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा;
  - (घ) नकदी तथा बैंक बकायों की स्थिति पर और निवेश की स्थिति पर लगातार नज़र रखेगा;
  - (ड.) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नज़र रखेगा तथा नियोजित किए जाने वाले संग्रहण के ढंग पर मन्त्रणा देगा;
  - (च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर तथा उपकरणों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित सभी कार्यालयों, विशेष केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों तथा संस्थाओं में उपकरण तथा अन्य सम्बन्धित सामग्री के स्टॉक निरीक्षण का संचालन किया जाये;
  - (छ) किसी अनधिकृत खर्च तथा अन्य वित्तीय अनियमिततायें कुलपति के ध्यान में लाएगा तथा उसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में सुझाव देगा; तथा
  - (ज) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय अथवा संस्था से, जो वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक समझे, कोई सूचना या विवरणी मंगवाएगा।

(6) विश्वविद्यालय को भुगतानयोग्य किसी धन के लिए वित्त अधिकारी अथवा कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की रसीद ऐसे धन के भुगतान के लिये पर्याप्त रूप से उन्मोचन होगी।

7. (1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और स्थापना परीक्षा नियंत्रक। समिति की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो कार्य परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

- (2) परीक्षा नियंत्रक का निम्नलिखित कर्तव्य होगा –
- (क) परीक्षाओं का अनुशासनबद्ध और दक्षतापूर्ण रीति में संचालन करना ;
  - (ख) गोपनीयता का पूर्ण ध्यान रखते हुए, प्रश्न-पत्र बनवाने की व्यवस्था करना ;
  - (ग) परीक्षा परिणामों के लिये योजनाबद्ध समय अनुसूची के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिये व्यवस्था करना ;
  - (घ) निष्पक्षता तथा विषयनिष्ठता के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से परीक्षा प्रणाली का निरन्तर पुनर्विलोकन करना ताकि इसे विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिये बेहतर साधन बनाया जा सके ; तथा
  - (ङ) परीक्षा प्रणाली से सम्बन्धित ऐसा कृत्य करना, जो कुलपति द्वारा, समय-समय पर, उसे सौंपा जाये।

पुस्तकाध्यक्ष।

8. पुस्तकाध्यक्ष विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और स्थापना समिति की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो कार्य परिषद् द्वारा विहित की जायें, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

संसद तथा उसका  
गठन।

9. (1) संसद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) पदेन सदस्य -

(i) कुलाधिपति ;

(ii) कुलपति ;

(iii) सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, या कोई नामनिर्देशिती जो निदेशक या संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;

(iv) प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग या कोई नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;

(v) महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा या उसकी अनुपस्थिति में संयुक्त निदेशक महाविद्यालय ;

(vi) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं या उसका कोई नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;

(vii) निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हरियाणा ;

(viii) संकायों के अध्यक्ष;

(ix) महाविद्यालयों के अध्यक्ष;

(x) कुल-सचिव ;

(xi) विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष, यदि कोई हो ;

(xii) परीक्षा नियंत्रक ;

(xiii) अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले ;

(xiv) पुस्तकाध्यक्ष ; और

(xv) वित्त अधिकारी।

(ख) अन्य सदस्य -

(i) हरियाणा विधान सभा द्वारा इसके अपने सदस्यों में से चुने जाने वाले दो व्यक्ति ;

(ii) विश्वविद्यालय के आचार्य जो दस से अधिक न हों, ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से ;

(iii) विश्वविद्यालय के सह-आचार्य तथा सहायक आचार्य में से चुने जाने वाले पांच अध्यापक जिनमें से कम से कम दो सह-आचार्य होंगे ;

(iv) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त शिक्षण महाविद्यालयों से एक प्रधानाचार्य ज्येष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;

(v) कुलपति द्वारा सीमांकित किए जाने वाले चार जोनों से प्रत्येक में समिलित शिक्षण महाविद्यालयों से भिन्न महाविद्यालयों में अधिष्ठायी हैसियत में अपने पद धारण करने वाले प्रधानाचार्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाने वाला एक प्रधानाचार्य ;

(vi) कुलपति द्वारा सीमांकित किए जाने वाले चार जोनों से प्रत्येक में समिलित महाविद्यालयों में अधिष्ठायी हैसियत में अपने पद धारण करने वाले अध्यापकों द्वारा स्वयं में से चुने जाने वाले प्रधानाचार्यों से भिन्न चार अध्यापक :

परन्तु इस उप-खण्ड के अधीन एक से अधिक अध्यापक किसी एक महाविद्यालय से संबंधित नहीं होगा ;

- (vii) निर्वाचन की तिथि से शैक्षणिक वर्ष की 31 मई तक की अवधि के लिए राज्य में गुरुग्राम विश्वविद्यालय विद्यार्थी यूनियन का सचिव तथा महाविद्यालयों की विद्यार्थी यूनियनों द्वारा स्वयं में से चुने जाने वाले दो सचिव ;
- (viii) कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले पन्द्रह प्रतिनिधि (विख्यात शिक्षाविदों में से दस तथा उद्योग, वाणिज्य, चिकित्सा, इंजीनियरी इत्यादि से पांच प्रतिनिधि) ;
- (ix) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों में से एक, तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम द्वारा ; तथा
- (x) गैर-सरकारी महाविद्यालयों के प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं में से निर्वाचित दो व्यक्ति । प्रबन्धकों के प्रतिनिधि संबंधित प्रबन्धकों के सदस्यों में से होंगे ।

(ग) कुल-सचिव संसद का सदस्य-सचिव होगा :

परन्तु समवर्गी संस्थाओं सहित विश्वविद्यालय का कोई वैतनिक कर्मचारी उप-खंड (ii) से (vi) तथा (ix) के सिवाय किन्हीं पूर्ववर्ती उपखंडों के अधीन निर्वाचन या नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा तथा यह कि यदि उप-खंड (ii) से (vi) तथा (ix) के सिवाय पूर्ववर्ती किन्हीं उपखंडों के अधीन निर्वाचित अथवा / और नामांकित कोई व्यक्ति बाद में विश्वविद्यालय अथवा इसकी समवर्गी संस्थाओं में किसी वैतनिक पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, तो वह संसद का सदस्य नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि उप-खंड (vii) के सिवाय कोई भी व्यक्ति जब तक उसने पच्चीस वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो नामांकन अथवा निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होगा ।

(2) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित हैं, उसके सिवाय, पदेन सदस्यों से मिन्न, संसद के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ।

(3) संसद की सभी बैठकों में, गणपूर्ति दो बटा पांच सदस्यों से होगी ।

(4) यदि बैठक के नियत समय के बाद आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ अपेक्षित संख्या में सदस्य उपस्थित न हो, तो बैठक आयोजित नहीं की जाएगी तथा कुल-सचिव उस तथ्य का अभिलेख करेगा ।

(5) निर्वाचन का ढंग मत पत्र द्वारा साधारण बहुमत से होगा तथा निर्वाचनों का संचालन कुलपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

**10.** (1) संसद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी ।

संसद की बैठकें ।

(2) संसद की विशेष बैठक कुलाधिपति द्वारा, कुलपति अथवा उसके एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध पर, किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

**11.** (1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

कार्य परिषद् तथा उसका गठन ।

I. पदेन सदस्य-

- (i) कुलपति ;
- (ii) सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, या कोई नामनिर्देशिती जो निदेशक या संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
- (iii) प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग या कोई नामनिर्देशिती जो उप निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ; और

(iv) सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग या कोई नामनिर्देशिती जो निदेशक या संयुक्त निदेशक/संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो;

## II. अन्य सदस्य –

(क) निम्नलिखित प्रवर्गों में से प्रत्येक से एक संकायों के पांच अध्यक्ष :–

(i) अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान संकाय तथा अध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय, चक्रानुक्रम से ;

(ii) अध्यक्ष, वाणिज्य तथा प्रबन्धन तथा सामाजिक विज्ञान संकाय, चक्रानुक्रम से ;

(iii) अध्यक्ष, मानविकी तथा विधि संकाय, चक्रानुक्रम से;

(iv) अध्यक्ष, इंडिक अध्ययन तथा शिक्षा संकाय, चक्रानुक्रम से ; और

(v) अध्यक्ष, इंजिनियरी तथा प्रौद्यागिकी और चिकित्सा विज्ञान, चक्रानुक्रम से;

(ख) अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले ;

(ग) महाविद्यालयों के दो प्राचार्य (संकायों के अध्यक्षों से अन्यथा), जिनमें से एक महिला महाविद्यालय से, आयु की वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;

(घ) संसद के सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाने वाला महाविद्यालय का एक अध्यापक (प्रधानाचार्य से अन्यथा) ;

(ङ.) उपखण्ड (क) के अधीन अध्यक्षों से अन्यथा विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों के आचार्यों में से एक, एक वर्ष के लिए वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;

(च) आचार्य से अन्यथा स्वयं में से चुने जाने वाले विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों के दो अध्यापक, जिनमें से कम से कम एक सह-आचार्य होगा ; और

(छ) राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विख्यात शिक्षाविदों अथवा विख्यात सेवारत/सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारियों में से कुलाधिपति के नामनिर्देशिती के रूप में चार व्यक्ति ।

(2) कुल-सचिव कार्य परिषद् का पदेन सचिव होगा ।

(3) गणपूर्ति दो बटा पांच सदस्यों से होगी ।

(4) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय, पदेन सदस्यों से भिन्न, कार्य परिषद् के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ।

(5) कोई सदस्य जो अर्हता धारण करने से प्रविरत हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वह कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामांकित किया गया था, तो वह कार्य परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा ।

कार्य परिषद् का निर्णय ।

**12.** विश्वविद्यालय के अतिरिक्त वित्तीय दायित्वों वाले तथा वार्षिक बजट से संबंधित मामलों में कार्य-परिषद् का कोई निर्णय केवल तभी लागू होगा जब ऐसा निर्णय लेते समय सरकार का कम से कम एक प्रतिनिधि उपस्थित हो तथा उसने ऐसे निर्णय की सहमति दे दी हो ।

कार्य परिषद् की शक्तियाँ ।

**13.** कार्य परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के राजस्व, सम्पत्ति तथा निधियों का धारण, नियन्त्रण तथा प्रशासन करना ;

(ख) अध्यापन तथा शैक्षणिक पद सृजित करना, ऐसे पदों की संख्या तथा परिलक्षियाँ अवधारित करना और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और अन्य शैक्षणिक अमले और प्रधानाचार्यों के कर्तव्य तथा सेवा शर्तें परिनिश्चित करना :

परन्तु अतिरिक्त वित्तीय दायित्व वाले नए पद सृजन के मामले तभी लागू रहेंगे यदि सरकार के नीचे दिये गये अनुसार प्रतिनिधि :—

वित्त सचिव या उसकी अनुपस्थिति में, उसका प्रतिनिधि ;

अथवा

सचिव, शिक्षा अथवा उसकी अनुपस्थिति में, उसका प्रतिनिधि, ऐसे निर्णय लेते समय उपस्थित हैं और ऐसे निर्णय की सहमति दे दी है:

परन्तु यह और कि यदि उचित नोटिस के बाद भी दो लगातार बैठकों में वित्त/उच्चतर शिक्षा विभाग से सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तो कार्य परिषद् पद सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकती है :

परन्तु यह और कि अध्यापकों और शैक्षणिक अमले की संख्या, अहंताओं तथा परिलक्षियों के बारे में, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् तथा वित्त समिति की सिफारिशों पर विचार के बाद कार्रवाई करेगी ;

- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के आचार्य, सह—आचार्य, सहायक आचार्य, अन्य शैक्षणिक अमले तथा प्रधानाचार्यों को इस प्रयोजन के लिये गठित चयन समितियों की सिफारिशों पर नियुक्त करना और उनमें अस्थायी रिक्तियां भरना ;
  - (घ) प्रशासनिक, लिपिक—वर्गीय तथा अन्य पद सृजित करना और परिनियमों द्वारा विहित रीति में उन पर नियुक्तियां करना ;
  - (ङ.) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, निवेश, सम्पत्ति, कारबार तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबन्ध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ताओं (एजेंटों) को नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे ;
  - (च) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई भी धन, जिसमें ऐसे स्टॉकों, निधियों, हिस्सों या प्रतिभूतियों में उपयोग में न लाई गई कोई आय भी शामिल है, जिन्हें वह समय—समय पर ठीक समझे या समय—समय पर ऐसे निवेशों में परिवर्तन करने की उसी प्रकार की शक्तियों सहित भारत में अचल सम्पत्ति की खरीद में निवेश करना ;
  - (छ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल तथा अचल सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण स्वीकार करना ;
  - (ज) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिये निर्माण, परिसर, फर्नीचर तथा उपकरण तथा अन्य आवश्यक साधनों की व्यवस्था करना ;
  - (झ) विश्वविद्यालय के लिये कोई सामान्य मुद्रा चुनना ;
  - (ञ) विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल—सचिव या ऐसे अन्य कर्मचारी या प्राधिकरण या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी कोई शक्ति, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करना ;
  - (ट) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, फेरबदल करना, उन्हें कार्यान्वित करना अथवा रद्द करना ;
  - (ठ) परिनियम बनाना, संशोधित अथवा निरसित करना;
  - (ड) विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखने के सम्बन्ध में निर्णय करना ; तथा
  - (ढ) विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करना जो अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं हैं।
14. (1) शिक्षा परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :—
- I. (क) पदेन सदस्यः—
- (i) कुलपति ;

शिक्षा परिषद् और  
उसका गठन।

- (ii) महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा या संयुक्त निदेशक या कोई नामनिर्देशिती जो उप निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ;
- (iii) कुल-सचिव ;
- (iv) संकायों के अध्यक्ष ;
- (v) विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष, यदि कोई हो ;
- (vi) शैक्षणिक मामलों के अध्यक्ष ;
- (vii) महाविद्यालय अध्यक्ष ;
- (viii) विभागों के अध्यक्ष ;
- (ix) विश्वविद्यालय छात्रावास का मुख्य वार्डन ;
- (x) कुलानुशासक;
- (xi) परीक्षा नियन्त्रक, यदि कोई हो ;
- (xii) विश्वविद्यालय पुस्तकालय का पुस्तकाध्यक्ष;
- (xiii) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों में से एक प्रधानाचार्य, चक्रानुक्रम से, बशर्ते वह कार्य-परिषद् का सदस्य न हो; तथा
- (xiv) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अवकाश प्राप्त आचार्य (आचार्यों) / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त अवकाश प्राप्त अधिसदस्य (किन्तु मत देने अथवा चुनाव लड़ने के अधिकार के बिना)।

## II. अन्य सदस्य –

- (i) प्रत्येक विभाग से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त एक आचार्य, वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;
- (ii) प्रत्येक संकाय से एक विश्वविद्यालय उपाचार्य, वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;
- (iii) प्रत्येक संकाय से एक विश्वविद्यालय प्राध्यापक, वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;
- (iv) नीचे वर्णित निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक में सम्मिलित महाविद्यालयों में अधिष्ठायी हैसियत में अपने पदों को धारण करने वाले क्रमशः प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों द्वारा स्वयं में से चुने जाने वाला एक प्रधानाचार्य तथा तीन अध्यापकः—
  - (क) शिक्षण महाविद्यालयों से भिन्न राजकीय महाविद्यालय;
  - (ख) शिक्षण महाविद्यालय ;
  - (ग) कुलपति द्वारा सीमांकित किये जाने वाले चार जोनों में से प्रत्येक में शिक्षण महाविद्यालयों से भिन्न गैर-सरकारी महाविद्यालय :

परन्तु इस खंड के अधीन निर्वाचित एक से अधिक अध्यापक किसी एक महाविद्यालय से नहीं होगा ;
- (v) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय से बाहर के नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के पांच शिक्षाविद् :  
परन्तु उनमें में से एक से अधिक उसी क्षेत्र से नहीं होगा ;
- (vi) संसद द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित तीन व्यक्ति; और
- (vii) निर्वाचन की तिथि से शैक्षणिक वर्ष की 31 मई तक की अवधि के लिए गुरुग्राम विश्वविद्यालय विद्यार्थी यूनियन का अध्यक्ष तथा महाविद्यालयों में विद्यार्थी यूनियनों के अध्यक्षों द्वारा स्वयं में से निर्वाचित दो अध्यक्ष :

परन्तु इस उपखंड के अधीन आने वाले सदस्य बैठक में उस समय भाग नहीं लेंगे, जिस समय शिक्षा परिषद् परीक्षकों की नियुक्ति पर विचार करे ।

- (2) कुल-सचिव शिक्षा परिषद् का सदस्य-सचिव होगा ।
- (3) दो बटा पांच सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।
- (4) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय, पदेन सदस्यों से भिन्न, शिक्षा परिषद् के सदस्य, दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ।
- (5) निर्वाचन का ढंग मतपत्र द्वारा साधारण बहुमत से होगा और निर्वाचनों का संचालन कुलपति द्वारा बनाए गये नियमों के अनुसार किया जायेगा ।

- 15.** (1) शिक्षा परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात्:-
- शिक्षा परिषद् की शक्तियाँ ।
- (क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना और शिक्षा पद्धतियों, शैक्षणिक स्तरों में अनुसंधान सुधारों के मूल्यांकन के संबंध में निदेश देना;
  - (ख) या तो अपनी निजी प्रेरणा पर या कुलाधिपति, कुलपति, कार्य परिषद् अथवा किसी संकाय के प्रतिनिर्देश से, सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना तथा उन पर उचित कार्रवाई करना ;
  - (ग) कार्य परिषद् को अध्यापन पद सृजित करने तथा समाप्त करने की सिफारिश करना ;
  - (घ) संकायों की सिफारिशों पर विभिन्न परीक्षाओं के लिये पाठ्य-विवरण तथा पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन विहित करना ;
  - (ङ) विश्वविद्यालय के शिक्षा सम्बन्धी कृत्यों, अनुशासन, निवास प्रवेश, अध्येता-वृत्तियों, अध्ययन-वृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पुरस्कारों को प्रदान करने, फीसों की रियायतों, सामूहिक जीवन तथा उपस्थिति के सम्बन्ध में परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम बनाना ; और
  - (च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा शिक्षा परिषद् को प्रदान की जायें या सौंपे जायें ।
- (2) पाठ्य-विवरण, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन तथा परीक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में शिक्षा परिषद् के सभी निर्णय, जहां तक वे परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित न हों, अतिम होंगे ।

- 16.** (1) वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :-
- वित्त समिति का गठन ।

- I. पदेन सदस्य-
- (क) कुलपति (अध्यक्ष) ;
  - (ख) सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, या कोई नामनिर्देशिती, जो निदेशक या संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
  - (ग) सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग या कोई नामनिर्देशिती, जो निदेशक या संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ; और
  - (घ) सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग या कोई नामनिर्देशिती जो निदेशक या संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो;
- II. अन्य सदस्य-
- (क) कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले वित्त में निपुणता रखने वाला एक बाह्य सदस्य ; और
  - (ख) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले संकायों के दो अध्यक्ष ।

- (2) कुल-सचिव समिति का सदस्य-सचिव होगा ।
- (3) वित्त समिति का नामनिर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा ।
- (4) तीन सदस्यों, जिनमें से कम से कम एक सदस्य सरकार का नामनिर्देशिती होगा, से गणपूर्ति होगी ।

वित्त समिति के कृत्य तथा शक्तियां ।

**17.** (1) वित्त समिति लेखों की परीक्षा और व्यय के प्रस्तावों की छानबीन करेगी तथा कार्य परिषद् को वार्षिक बजट अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी। वित्त समिति जो विश्वविद्यालयों के संसाधनों तथा आय के आधार पर वर्ष के लिये कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करेगी, के पूर्व अनुमोदन के बिना, विश्वविद्यालय द्वारा, बजट में से कोई खर्च उपगत नहीं किया जायेगा। इस प्रकार नियत सीमाओं से अधिक विश्वविद्यालय द्वारा कोई खर्च उपगत नहीं किया जायेगा ।

(2) यह अध्यापन तथा अन्य पदों के सृजन की जांच करेगी तथा कार्य परिषद् को सिफारिश करेगी ।

(3) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा शासकीय प्राक्कलन वित्त समिति के समक्ष उस पर उसके विचार तथा टिप्पणी के लिये रखे जायेंगे तथा उसके बाद कार्य परिषद् को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे ।

विश्वविद्यालय के संकाय ।

**18. निम्नलिखित संकाय होंगे –**

- (1) मानविकी संकाय ;
- (2) सामाजिक विज्ञान संकाय ;
- (3) जीव विज्ञान संकाय ;
- (4) शिक्षा संकाय ;
- (5) वाणिज्य तथा प्रबंधन संकाय ;
- (6) सूचना प्रौद्योगिकी संकाय ;
- (7) ऐसे अन्य संकाय जिन्हें कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् की सिफारिश पर परिनियमों द्वारा विहित कर सकती है ।

संकायों का गठन ।

**19. (1) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित शामिल होंगे –**

- (i) संकाय का डीन (अध्यक्ष) ;
- (ii) उस संकाय में सम्मिलित विभागों का अध्यक्ष ;
- (iii) प्रत्येक विभाग से एक आचार्य वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;
- (iv) संकाय में सम्मिलित विभागों में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यता-प्राप्त एक सह-आचार्य तथा एक सहायक आचार्य वरिष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम से ; और
- (v) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त महाविद्यालयों या संस्थाओं के दो प्रधानाचार्य वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ।

**(2) नामनिर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष के लिये पद धारण करेंगे :**

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के अनुरोध पर, किसी संकाय के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है ।

(3) शैक्षणिक शाखा का प्रभारी जो सहायक कुल-सचिव से नीचे की पदवी का न हो, संकाय के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(4) प्रत्येक संकाय में सदस्यों के दो बटा पांच से गणपूर्ति होगी ।

**20.** (1) प्रत्येक संकाय का अध्यक्ष होगा जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा। अध्यक्ष, संकाय संकायों के अध्यक्ष। में सम्मिलित विभिन्न विभागों के आचार्यों में से वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु अध्यक्ष के रूप में नियुक्त आचार्य अगली बार तब नियुक्त किया जायेगा जब संकाय के सभी आचार्य अपनी वरिष्ठता के क्रम में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो चुके होंगे :

परन्तु यह और कि यदि संकाय में कोई आचार्य नहीं है, तो सम्बन्धित विभागों में सह-आचार्य में से अध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी।

(2) अध्यक्ष, जो दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा, के पद के साथ उपयुक्त पारिश्रमिक होगा।

(3) अध्यक्ष, संकाय की बैठकें बुलाएगा तथा उनकी अध्यक्षता करेगा।

(4) अध्यक्ष, उनमें अध्यापन के समन्वय के लिये तथा संकाय के निर्णय के निष्पादन के लिये जिम्मेदार होगा।

(5) अध्यक्ष को संकाय की समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने और उसके विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा।

**21.** शिक्षा परिषद् के नियन्त्रण के अध्यधीन, संकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी—

संकायों की शक्तियां।

- (क) संकाय को सौंपे गए विभागों में विश्वविद्यालय के अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य में तालमेल लाना;
- (ख) अध्ययन बोर्डों से आवश्यक रिपोर्टों के बाद, विभिन्न परीक्षाओं के लिये शिक्षा परिषद् को पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन तथा पाठ्य विवरणों की सिफारिश करना;
- (ग) विभागों से पद सृजित करने तथा समाप्त करने के लिये रिपोर्ट प्राप्त करना तथा उन्हें शिक्षा परिषद् को ऐसी सिफारिशों के साथ भेजना जो वह युक्तियुक्त समझे;
- (घ) अध्यापन तथा परीक्षाओं के स्तरों की उन्नति के लिये स्कीमों के बारे में शिक्षा परिषद् से विचार-विमर्श करना तथा सुझाव देना; और
- (ङ.) किसी अन्य मामले के संबंध में कार्रवाई करना जो उसे शिक्षा परिषद् या कुलपति या संकायों के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जाये।

**22.** (1) प्रत्येक अध्यापन विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए, चक्रानुक्रम से, नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु—

- (क) यदि किसी विभाग में दो या अधिक आचार्य हों, तो अध्यक्षता केवल आचार्यों में से वरिष्ठता द्वारा चक्रानुक्रम से होगा :

परन्तु अध्यक्ष के रूप में नियुक्त आचार्य अगली बार तब नियुक्त किया जायेगा जब विभागों में सभी आचार्य अपनी वरिष्ठता के क्रम में अध्यक्ष नियुक्त हो चुके होंगे ;

- (ख) यदि किसी विभाग में केवल एक ही आचार्य हो, तो अध्यक्षता, आचार्य तथा वरिष्ठतम उपाचार्य के बीच चक्रानुक्रम से होगी;

- (ग) यदि किसी विभाग में कोई आचार्य न हो, तो अध्यक्षता वरिष्ठतम दो सह-आचार्यों के बीच चक्रानुक्रम से होगी; और

- (घ) कुलपति, यदि वह किसी प्रशासकीय कारण से ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो वह वरिष्ठता के सिद्धांत में परिवर्तन कर सकता है, जिसमें वह मामले की रिपोर्ट कार्य परिषद् को उसकी अगली बैठक में देगा।

(2) ऐसे विभाग की दशा में, जहां कोई अध्यापक ऐसे विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र न हो, जहां महाविद्यालयों में केवल पूर्व-स्नातक स्तर तक के लिये शिक्षा दी जाती है, संबंधित संकाय का अध्यक्ष ही उसका अध्यक्ष होगा ।

(3) यदि कोई वरिष्ठ व्यक्ति लम्बे अवकाश पर हो, तो अगला पात्र व्यक्ति विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया जायेगा और वह अपनी समयावधि पूरी होने तक इस रूप में निरन्तर बना रहेगा, यद्यपि वरिष्ठ व्यक्ति उस अवधि के दौरान अवकाश से वापस भी आ जाये । तथापि, वरिष्ठ व्यक्ति, वर्तमान पदधारी की समयावधि की समाप्ति के बाद, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा ।

(4) यदि विभाग का अध्यक्ष, बीमारी के कारण, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से, अपने पद के कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, तो जब तक कुलपति अन्यथा आदेश न करे, पद के कर्तव्य अगले पात्र व्यक्ति द्वारा निभाए जायेंगे ।

(5) यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करता है या स्वेच्छा से त्याग-पत्र देता है, तो वह विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक पात्र अध्यापकों में से चक्रानुक्रम से चक्र की समाप्ति के बाद उसकी बारी फिर से न आ जाये ।

(6) यदि कुलपति, यह आवश्यक समझे, तो वह इस तथ्य को विचार में लाए बिना कि वर्तमान अध्यक्ष की समयावधि अभी समाप्त नहीं हुई है, अगले पात्र व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है, उस दशा में वह मामले की रिपोर्ट कार्य परिषद् को उसकी अगली बैठक में देगा ।

नियुक्तियां ।

**23.** (1) अध्यापन पदों पर सभी नियुक्तियां चयन समिति की सिफारिशों पर, कार्य परिषद् द्वारा की जायेंगी ।

(2) श्रेणी-क (अध्यापनेतर/तकनीकी) पदों पर नियुक्तियां, स्थापना/चयन समिति की सिफारिश पर, कार्य परिषद् द्वारा की जाएंगी ।

(3) (i) श्रेणी-ख पदों पर नियुक्तियां, नियमों अथवा आदेशों में अधिकथित सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् कुलपति द्वारा की जाएंगी; और

(ii) श्रेणी-ग तथा घ कर्मचारियों के संबंध में दैनिक वेतन आधार पर नियुक्तियां, नियमों अथवा आदेशों में अधिकथित सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् कुल-सचिव द्वारा की जाएंगी ।

(4) उपर्युक्त खण्ड (1), (2) और (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, जहां वह आवश्यक समझे, छह मास से अनधिक अवधि के लिये तदर्थ या अस्थायी नियुक्ति कर सकता है, यदि नियमित नियुक्ति करना संभव अथवा वांछनीय न हो । जहां कार्य परिषद् नियुक्ति प्राधिकारी हो, तो कुलपति द्वारा लिया गया निर्णय कार्य परिषद् को उसकी अगली बैठक में सूचित किया जाएगा ।

चयन

समितियां ।

**24.** (1) आचार्य/सह-आचार्य/सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए, चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(i) कुलपति ;

(ii) संकाय का अध्यक्ष ;

(iii) सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष, यदि वह आचार्य हो ;

(iv) विभाग में वरिष्ठतम् आचार्य सिवाय उसके जहां कुलपति द्वारा अन्यथा निर्णीत हो ;

(v) तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से सम्बन्ध न रखते हों तथा जो उस विषय में जिससे आचार्य सम्बद्ध होगा, अपने विशेष ज्ञान, अथवा रूचि के आधार पर, शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार की गई नामावली से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायें :

परन्तु कुलपति विशेष परिस्थितयों में नामावली में अधिक नाम जोड़ सकता है और इन नामों की रिपोर्ट शिक्षा परिषद् को उसकी अगली बैठक में करेगा; और

(vi) कोई परिषत्सदस्य, जो कुलाधिपति का नामनिर्देशिती हो ।

(2) परिनियमों में यथा उपबन्धित, शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार की गई नामावलियां तथा कुलपति द्वारा उनमें किये गए परिवर्धन, यदि कोई हों, कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परन्तु यदि चयन समिति में उपस्थित होने के निमन्त्रण को स्वीकार करने के बाद भी विशेषज्ञों में से कोई एक उपस्थित होने में असफल रहता है, तो बैठक की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी :

परन्तु यह और कि चयन समिति की बैठक की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी यदि चयन समिति का कोई पदेन—सदस्य बैठक में उपस्थित होने में असफल रहता है ।

(3) कुलपति चयन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और कुल—सचिव उसके सचिव के रूप में कार्य करेगा । चयन समिति की बैठक कुलपति द्वारा, या उसके निर्देशों के अधीन बुलाइ जायेगी ।

(4) चयन समिति उसे निर्दिष्ट की गई नियुक्तियों के बारे में विचार करेगी और कार्य परिषद् को सिफारिश प्रस्तुत करेगी । यदि कार्य परिषद् समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में असमर्थ हो, तो वह इसके कारण अभिलिखित करेगी और मामला कुलाधिपति को अन्तिम आदेशों के लिये प्रस्तुत करेगी ।

(5) परिनियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में आचार्य का पद ग्रहण करने के लिए उच्च शैक्षणिक विशेषता और वृत्तिक योग्यता वाले किसी व्यक्ति को ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो वह उचित समझे और ऐसा करने के लिए सहमति देने वाले व्यक्ति को पद पर उसे नियुक्त करने के लिए आमन्त्रित कर सकती है ।

25. स्थापना समिति का गठन अध्यादेश द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

स्थापना समिति ।

26. (1) शिक्षा योजना बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

शिक्षा योजना बोर्ड का गठन और कृत्य ।

(क) कुलपति ;

(ख) शिक्षा में उच्च जानकारी रखने वाले सात से अनधिक व्यक्ति, जो कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे ; और

(ग) कुल—सचिव बोर्ड का सचिव होगा ।

(2) बोर्ड की सिफारिशों को, विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद, कार्यरूप दिया जायेगा ।

(3) यह विश्वविद्यालय में विशेषकर शिक्षा और अनुसंधान के स्तरों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की योजना और विकास पर परामर्श देगा ।

27. उपाधियां प्रदान करने के लिए तथा अन्य प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह दीक्षान्त समारोह । ऐसी रीति में आयोजित किया जायेगा, जो कार्य परिषद् द्वारा, समय—समय पर, अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जायें ।

परन्तु सम्मानार्थ उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन रहते हुए होगा ।

28. विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में कुलपति की सिफारिश पर शिक्षा परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से सृजित विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग होंगे । विभाग ।

29. कुलपति की सिफारिश पर शिक्षा परिषद् द्वारा अध्ययन विभाग विभिन्न संकायों को समनुदेशित किये जायेंगे । संकायों को अध्ययन विभाग का समनुदेशन ।

30. (1) संकाय में सम्मिलित प्रत्येक विभाग में, दो अध्ययन बोर्ड होंगे, एक पूर्व—स्नातक अध्ययन के लिये और दूसरा अध्ययन बोर्ड स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान के लिये होंगा । अध्ययन बोर्ड ।

(2) पूर्व—स्नातक अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे —

(i) विभाग का अध्यक्ष ;

(ii) कुलपति द्वारा, वरिष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले, विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त एक आचार्य ;

(iii) कुलपति द्वारा, वरिष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त एक सह-आचार्य तथा एक सहायक आचार्य :

परन्तु कोई भी ऐसा अध्यापक दो क्रमिक अवधियों के लिये नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि ऐसा कोई अध्यापक, जो संकाय के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है, इस उप-खण्ड के अधीन नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा ;

(iv) महाविद्यालयों से, सम्बन्ध विषय में पूर्व-स्नातक अध्यापन अनुभव काल द्वारा अवधारित की जाने वाली वरिष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रमों के छह अध्यापक (जिनमें प्रधानाचार्य भी शामिल हैं) किंतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी एक महाविद्यालय से एक से अधिक ऐसा सदस्य न हो ; और

(v) विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो बाहरी विशेषज्ञ :

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के अनुरोध पर, उपर्युक्त उप-खण्ड (iv) के अधीन, पूर्व-स्नातक अध्ययन बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है।

(3) स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे –

(i) विभाग का अध्यक्ष ;

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त सभी आचार्य ;

(iii) कुलपति द्वारा, वरिष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त दो सह-आचार्य और दो सहायक आचार्य ;

(iv) स्नातकोत्तर अध्यापन अनुभव काल द्वारा अवधारित की जाने वाली वरिष्ठता के अनुसार, कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले सम्बद्ध विषय में कम से कम दस वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित जिसमें से पांच वर्ष का स्नातकोत्तर उपाधि अध्यापक के रूप में होगा, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विभागों के अध्यक्षों सहित दो अध्यापक :

परन्तु यदि स्नातकोत्तर विभागों वाले महाविद्यालयों की संख्या छह से अधिक हो, तो संबंधित विषय का एक और अध्यापक नामनिर्दिष्ट किया जायेगा किंतु एक ही महाविद्यालय से एक से अधिक ऐसा सदस्य नहीं होगा ; और

(v) विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो बाहरी विशेषज्ञ :

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के अनुरोध पर, उपर्युक्त उप-खण्ड (iv) के अधीन स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है।

(4) (i) पूर्व-स्नातक अध्ययन बोर्ड, सम्बद्ध संकाय के माध्यम से पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए, विभिन्न विषयों हेतु अध्ययन के पाठ्यक्रमों और पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों के लिये शिक्षा परिषद् को सिफारिश करेगा और स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड, स्नातकोत्तर कक्षाओं और अनुसंधान उपाधियों के लिये पाठ्यक्रमों के संबंध में ऐसी सिफारिशें करेगा ;

(ii) अध्ययन बोर्ड, पूर्व-स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, जैसी भी स्थिति हो, के लिए प्राशिनकों तथा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में शिक्षा परिषद् को सिफारिश भी करेगा ; और

(iii) अध्ययन बोर्ड ऐसे किसी अन्य मामले के बारे में भी कार्यवाही करेगा जो उन्हें संकाय द्वारा निर्दिष्ट किया जाये। विभाग का अध्यक्ष बोर्ड का अध्यक्ष होगा। पदन-सदस्यों से भिन्न सदस्य दो वर्ष के लिये पद धारण करेंगे :

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसकी पुस्तक या कोई अन्य प्रकाशन बोर्ड के समक्ष विचाराधीन हो, बोर्ड से आसक्त नहीं होगा :

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से तुच्छ नोट, गाईडें या सहायक पुस्तकें प्रकाशित करने में सम्मिलित हो, तो वह अध्ययन बोर्ड का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा।

**31.** विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं वापस ली जा सकती हैं – उपाधि/उपाधि- पत्र इत्यादि की वापसी ।

(क) यदि सम्बन्धित व्यक्ति की उम्मीदवारी, अध्यादेश द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार रद्द कर दी गई हो या परीक्षाफल रद्द कर दिया गया हो ; अथवा

(ख) यदि उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में दुर्व्यवहार किया हो :

परन्तु इस प्रश्न का अंतिम रूप से निर्णय कुलपति द्वारा किया जायेगा कि किसी व्यक्ति ने इस परिनियम के अनुसार दुर्व्यवहार किया है ; अथवा

(ग) जब शिक्षा परिषद् के समक्ष यह दर्शाते हुये पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि कोई व्यक्ति जिसको विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि या उपाधि-पत्र इत्यादि प्रदान किया गया था, ऐसे अपराध का सिद्धदोष हो गया है, जो उनकी राय में गम्भीर अपराध है, तो शिक्षा परिषद्, कार्य परिषद् को सिफारिश कर सकती है कि ऐसी उपाधि या उपाधि-पत्र को रद्द कर दिया जाये।

**32.** विश्वविद्यालय द्वारा किसी अध्यापक का अनुमोदन, मान्यता वापस ली जा सकती है – अध्यापकों का अनुमोदन, मान्यता वापसी ।

(क) यदि अध्यापक अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है ; अथवा

(ख) यदि कार्य परिषद् के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि अध्यापक ने ऐसा कार्य किया है, जो उनकी राय में गम्भीर अपराध है, तो कार्य परिषद् अध्यापक का अनुमोदन, मान्यता वापस ले सकती है।

**33.** विश्वविद्यालय, सरकार के पैटर्न पर अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये उपदान, अनुग्रह-अनुदान इत्यादि उपलब्ध करवायेगा। उपदान, अनुग्रह-अनुदान इत्यादि ।

**34.** प्रदान की जाने वाली अध्येता-वृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पुरस्कारों की संख्या तथा मूल्य कार्य परिषद् द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या शिक्षा परिषद् या वित्त समिति की सिफारिशों पर अवधारित किया जायेगा । अध्येता-वृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कार ।

**35.** (1) इन परिनियमों में दी गई किसी बात के होते हुये भी, कोई व्यक्ति, जो किसी विशेष प्राधिकरण या निकाय का सदस्य अथवा किसी नियुक्ति विशेष के धारक की हैसियत में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य है, केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक उस विशेष प्राधिकरण या निकाय का सदस्य या उस नियुक्ति विशेष का धारक, जैसी भी स्थिति हो, बना रहता है :

परन्तु विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का ऐसा अध्यापक-सदस्य जो अपनी सेवा से त्याग-पत्र दे देता है अथवा छह मास अथवा इससे अधिक के लिये छुट्टी पर चला जाता है, तो वह सम्बद्ध निकाय का सदस्य नहीं रहेगा और कोई स्थानापन्न नियुक्ति किया जायेगा। यदि उसकी छुट्टी की अवधि छह मास से कम हो, तो उसकी सदस्यता छुट्टी से वापसी तक अथवा छह मास की अवधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी बाद में हो, स्थगित रखी जायेगी। जहां सदस्यता स्थगित रखी जाती है, वहां कोई स्थानापन्न सदस्य नियुक्त या निर्वाचित नहीं किया जायेगा ।

(2) यदि कोई अध्यापक छह मास अथवा इससे अधिक की अवधि के लिये छुट्टी पर हो, तो वह उस विशेष रिक्ति के लिये नामनिर्देशन या पुनः निर्वाचन के लिये पात्र नहीं होगा। तथापि, वह ऐसी रिक्ति पर, जो छुट्टी से उसके लौटने के बाद उत्पन्न हो, नामनिर्देशन या निर्वाचन के लिये पात्र होगा ।

सदस्यता की समयावधि की परिसीमा ।

सदस्यता इत्यादि की समाप्ति ।

**36.** इन परिनियमों अथवा अध्यादेशों में दी गई किसी बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति, जो नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद्धदोष हो गया है अथवा जो किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था से अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी भी प्रकार की शिक्षा संस्था से कदाचार के कारण पदच्युत कर दिया गया है, तो इस विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का अथवा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति का सदस्य बनने, या बने रहने के लिये पात्र नहीं होगा। निलम्बन के अधीन किसी व्यक्ति को उसके निलम्बन की अवधि के दौरान उपर्युक्त प्राधिकरणों या समितियों की किसी बैठक में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्यता के लिये निरहता ।

**37.** यदि कोई व्यक्ति शिक्षा परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के संबंध में उसकी ओर से किये गये किसी प्रकार के अनाचार के कारण विश्वविद्यालय के किसी कार्य से विवर्जित कर दिया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति अपवर्जन रहने तक, विश्वविद्यालय के किसी निकाय या प्राधिकरण का सदस्य बनने, अथवा बने रहने के लिये निरर्हित रहेगा।

प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।

**38.** (1) विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी कुलपति तथा संबंधित उच्च अधिकारियों के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिन्हें कार्य परिषद् अध्यादेशों, नियमों, विनियमों अथवा उसके द्वारा अंगीकृत संकल्पों द्वारा प्रत्यायोजित करे।

(2) कुलपति या कुल-सचिव, कुलाधिपति के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या किसी अन्य कर्मचारी को ऐसी शक्तियां जो वह आवश्यक समझे प्रत्यायोजित कर सकता है जो उनमें परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा निहित की गई हैं।

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा को शैक्षणिक रूप से अग्रणी राज्य बनाना वर्तमान राज्य सरकार की मुख्य चिंता है। राज्य सरकार का ध्यान सभी को सस्ती, न्यायसंगत और आवश्यक आधारभूत शिक्षा प्रदान करना है। संभावनाएं प्रचुर हैं, लेकिन चुनौतियां भी अभूतपूर्व हैं। हरियाणा के उच्च शिक्षा क्षेत्र को दुनिया भर में हो रहे गतिशील परिवर्तनों का उत्तर देना होगा। उभरती हुई तकनीकों को अपनाने, बाजार द्वारा संचालित दृष्टिकोण, प्रभावी निधि बढ़ाने और सरकार द्वारा सही नीति ढांचे द्वारा समर्थित तैनाती हरियाणा में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य में, इस क्षेत्र के लोगों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए, शैक्षिक सुविधाओं के सृजन और विकास की बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए गुरुग्राम में एक विश्वविद्यालय की स्थापना नितान्त आवश्यक है।

पूरे क्षेत्र में व्यावसायिक पाठश्यक्रमों का कोई राज्य संस्थान नहीं है। इस क्षेत्र के युवा लड़कियों और लड़कों को सामान्य शिक्षा, इंजीनियरिंग और अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों में पढ़ाई के लिए अन्य स्थानों पर जाना होगा। वर्तमान परिदृश्य में, नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रमों की बहुत बड़ी मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए, एक विश्वविद्यालय की स्थापना तत्काल आवश्यक प्रतीत होती है।

इसलिए यह विधेयक।

राम बिलास शर्मा,  
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:  
दिनांक 3 मई, 2017.

आर. के. नादल,  
सचिव।

### प्रत्यायोजन विधान के बारे ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक का खण्ड 23 विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या अधिकारियों में शक्तियों के प्रत्यायोजन की व्यवस्था करता है। प्रस्तावित विधेयक का खण्ड 24 कार्यकारी परिषद् को कुलपति के अनुमोदन से परिनियम बनाने के लिए अधिकृत करता है। विधेयक का खण्ड 26 कार्यकारी परिषद् को अध्यादेश बनाने की शक्ति प्रत्यायुक्त करता है। इसी प्रकार विधेयक का खण्ड 27 विश्वविद्यालय को प्राधिकरण को अधिनियम के प्रयोजन की पालना करने हेतु विनियम बनाने की शक्तियों प्रत्यायुक्त करता है। प्राधिकरण को शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य आचरण है। अतः हरियाणा विधान मण्डल के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 126 के अन्तर्गत वाचित प्रत्यायोजन विधान का ज्ञापन सलंग्न है।

55264—H.V.S.—H.G.P., Chd.